



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 7—मई 13, 2011 (वैशाख 17, 1933)

No. 19]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 7—MAY 13, 2011 (VAISAKHA 17, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 2011

सं. 174, दिनांक 14 मार्च 2011—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री जय राज का नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वर्ष 2010 की चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09 दिसम्बर 2010 के आदेश सं. 4/2/2010—सीएस-I(डी) के तहत इसी मंत्रालय में, 09 दिसम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से, नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 09 दिसम्बर, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010—सीएस-I(डी) के तहत वर्ष 2010 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर सचिव श्रीमती शशि प्रभा मुंजाल का नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 13 दिसम्बर, 2010 (अपराह्न) से रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 09 दिसम्बर, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010—सीएस-I(डी) के तहत वर्ष 2010 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की

चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव डॉ. हरमीत सिंह का नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 21 दिसम्बर, 2010 (अपराह्न) से रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित प्रधान निजी सचिव श्री आर वी जोस को वेतन बैंड (पीबी-3) में 15,600--39,100/- रु. + 7,600/- रु. ग्रेड वेतन में 30 नवम्बर 2010 से 31 मार्च 2011 तक अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो पहले हो, रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित श्रेणी 'ग' आशुलिपिक, जो इस समय रक्षा मंत्रालय में 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 4,800/- रु. के संशोधित वेतन बैंड में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न हैं, की नियुक्ति को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि तक या नियमित निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, और आगे बढ़ाते हैं :--

नाम तथा से तक

अशोक कुमार, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

शक्ति बाला बक्शी, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

वित्त प्रभाग

मो. गोहर हुसैन, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

राजेन्द्र प्रसाद, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

हरबंस लाल, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

अनिल कुमार, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

चन्द्र कुमार, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

राजबीर सिंह डबास, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

अशोक कुमार, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

उर्मिल गाबा, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

संजय महानी, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

वी डी शर्मा, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

जय इन्द्र राय, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

प्रमोद शर्मा, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

महेन्द्र कुमार, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

यू के एस पुरी, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

प्रतिभा पास्सी, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

लता करूणानेथि, 01 जनवरी 2011/30 जून 2011

तदर्थ नियुक्ति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव) के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकारी नहीं होगा।

तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

राष्ट्रपति, खान मंत्रालय के संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' श्री दविन्द्र कुमार जो इस मंत्रालय में तदर्थ निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं, का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की वर्ष 2008 की आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) (निजी सचिव) की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 20 दिसम्बर 2010 से रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संवर्ग की ग्रेड 'ग' आशुलिपिक श्रीमती रीता मेहता, जो उसी मंत्रालय में स्थानापन्न आधार पर निजी सचिव हैं, का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की वर्ष 2008 की आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 06 जनवरी 2011 के पूर्वाह्न से रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) (निजी सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस के रस्तोगी
अवर सचिव

सं. 175, दिनांक 14 मार्च 2011—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री टी के गुप्ता को 04 फरवरी 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में उप-वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री कमल कुमार कोहली को 04 जनवरी 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में उप-वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

टी एच फ्रेंकलिन
उप वित्तीय सलाहकार (स्था/एमओ)

सेना शाखा

सं. 176, दिनांक 14 मार्च 2011—राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

विशेष आयोग

निम्नलिखित 16 जी सी को अनुदेश 5/97 के अन्तर्गत संलिखित सेना सेवा में 12 जून 2010 से लेफ्टिनेन्ट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है:—

नाम, आईएमए सं., सेन्य सं. पैत्रक आर्म सर्विस, एससी सं. तथा आर्वांटि सर्विस आर्म

तारिक अहमद मंगराल, एस/752, (9104943वाई), इन्फैन्ट्री, (एससी-00613ए), एओसी

पीटर जॉन, एस/722, (जेसी-308569पी), इंजीनियर्स, (एससी-00614एच), इंजीनियर्स

पवन सिंह, एस/749, (3994991एन), इन्फैन्ट्री, (एससी-00615एल), इन्फैन्ट्री

प्रशान्त थापा, एस/741, (5454261के), इन्फैन्ट्री, (एससी-00616एन), एससी

कैलाश मल्ल, एस/751, (5249234एम), इन्फैन्ट्री, (एससी-00617डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री

मानवरेन्द्र सिंह गुसाई, एस/747, (9513213एच), आईसी, (एससी-00618वाई), आर्टी

अनुप थापा, एस/745, (5454048के), इन्फैन्ट्री, (एससी-00619एफ), इन्फैन्ट्री

पारितोष कुमार सरकार, एस/748, (9512855एल), आईसी, (एससी-00620डब्ल्यू), इन्ट

गुरंग सागर, एस/740, (5047560एल), इन्फैन्ट्री, (एससी-00621वाई), इन्फैन्ट्री

रमेश सिंह, एस/739, (4369807एल), इन्फैन्ट्री, (एससी-00622एफ), मैक

राम स्वरूप, एस/746, (6486095एल), एएससी, (एससी-00623के), एसी

शाम कुमार यादव, एस/750, (15773796एच), एएडी, (एससी-00624एम), एएडी

अमित थापा, एस/743, (5453751एल), इन्फैन्ट्री, (एससी-00625पी), इन्फैन्ट्री

शमशेर सिंह, एस/742, (2496814एन), इन्फैन्ट्री, (एससी-00626एक्स), इंजीनियर्स

सजेट जोसफ, एस/744, (14810596डब्ल्यू), एएससी, (एससी-00627ए), आर्टी

अनिल कुमार रोहिल, एस/738, (जेसी-489134वाई), इन्फैन्ट्री, (एससी-00628एच), आर्टी

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

1. निम्नलिखित जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि, 17 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यूईएस) के हैं, को लेफ्टिनेन्ट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :--

नाम, आईएमए सं., एसएस सं. आर्म/सर्विस तथा अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

गौरव जैन, यू/901, (43574ए), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

सुचित पाण्डे, यू/914, (43587एक्स), ईएमई, 01 जून 2007

अंकुर त्यागी, यू/924, (43597एफ), सिग्नल्स, 16 जुलाई 2008

2. जैण्टलमैन कैडेट्स को दिये गये आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

राहुल शर्मा
ले. कर्नल
एएमएस-8बी

सं. 177, दिनांक 15 मार्च 2011--श्री सुन्चोनगम जाटक चौरु, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 1999), उप सचिव, रक्षा मंत्रालय के 'पार्श्विक स्थानांतरण' आधार पर उप सचिव स्तर पर पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन) के विशेष कार्याधिकारी (ओ एस डी) पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदन होने के फलस्वरूप दिनांक 09 नवम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से उनकी सेवाएं पोत परिवहन मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

के मुरली
अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 178, दिनांक 15 मार्च 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

मेजर से लेफ्टि कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आई सी संख्या, नाम, आर्म तथा सब्सटैंटिव तिथि

(आईसी-41395एफ) एन वेंकेश, एसी, 18 जून 2003

टी के दास
उप निदेशक
एम एस-8ए

सेना शाखा

सं. 179, दिनांक 15 मार्च 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

विंग कमांडर के पद पर

उज्जल सिंह तंवर (एमआर-08196एन) (एफ-26070आर), एएमसी, 22 जनवरी 2010

फ्लाईट लेफ्टि से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

रमनजीत सिंह अकाल (एमआर-08745एच) (एफ-28377ए), एएमसी, 17 मई 2009

विवेक रंजन सिंह (एमआर-09052एक्स) (एमएस-15087के) (एफ-28384आर), एएमसी, 17 सितम्बर 2010

मेजर के पद पर

जॉन मागेश कुमार जे (एमएस-15382एम) (एमआर-08814एल), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

कारान्दे प्रवीन नारायण (एमएस-15376वाई) (एमआर-08900वाई), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

ऋषिकेश मगदूम (एमएस-15352पी) (एमआर-08919एक्स), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

यश पांडे
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक सं. से. चि. से. (मा सं)

सेना शाखा

सं. 180, दिनांक 16 मार्च 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा कमीशन

लेफ्टि से कप्तान

नाम, एसएस सं., आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि तथा कप्तान दिनांक से

सतेन्द्र सिंह नेगी (एसएस-42886), सिग्नल्स, 22 मार्च 2008, एसएससी 85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

बिकाश सिंह (एसएस-42887), इंजीनियर्स, 22 मार्च 2008, एसएससी 85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

रवि प्रताप सिंह (एसएस-42950), इंजीनियर्स, 22 मार्च 2008, एसएससी 85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

राजदीप सिंह (एसएस-42982), सिग्नल्स, 22 मार्च 2008, एसएससी 85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

अंकुश अग्निहोत्री (एसएस-42989), सिग्नल्स, 22 मार्च 2008, एसएससी 85(एनटी), 22 अक्टूबर 2008, 22 अक्टूबर 2010

अल्पकालीन सेवा कमीशन (एसएससीडब्ल्यू)

लेफ्टि से कप्तान

नाम, एसएस सं., आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि तथा कप्तान दिनांक से

स्मृति झा (एसएस-43785), सिग्नल्स, 22 सितम्बर 2007, एसएससीडब्ल्यू 02(टी), 22 अक्टूबर 2007, 22 अक्टूबर 2009

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यूएसईएस)

लेफ्टि से कप्तान

नाम, डब्ल्यूएस सं., आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि तथा कप्तान दिनांक से

रमनदीप कौर (डब्ल्यूएस-01392), एओसी, 22 सितम्बर 2007, डब्ल्यूएसईएसओ 30(एनटी), 22 सितम्बर 2008, 22 सितम्बर 2010

साक्षी पटेल (डब्ल्यूएस-01408), एओसी, 22 सितम्बर 2007, डब्ल्यूएसईएसओ 30(एनटी), 22 सितम्बर 2008, 22 सितम्बर 2010

गौरी मिश्रा (डब्ल्यूएस-01426), एओसी, 22 सितम्बर 2007, डब्ल्यूएसईएसओ 30(एनटी), 22 सितम्बर 2008, 22 सितम्बर 2010

राहुल शर्मा
लेफ्टि कर्नल
एमएस-8बी

थल सेना विभाग

सं. 181, दिनांक 16 मार्च 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बेनडिक्ट शेरफीम (जेसी-419564एल), 01 जनवरी 2011

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सहदेव सिंह (जेसी-420927डब्ल्यू), 13 जनवरी 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रमेश चंद्र भट्ट (जेसी-420465पी), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार गोवर्धन सिंह मंजु (जेसी-420533एक्स), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार नरेंद्र सिंह (जेसी-420547एक्स), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार शिव करन सिंह (जेसी-420617एल), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-420625के), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-420678एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह कनवाल (जेसी-420758ए), 10 जनवरी 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रेम काजी गुरुंग (जेसी-420853एम), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार भरत प्रसाद (जेसी-420914वाई), 10 जनवरी 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुरेश कुमार वर्मा (जेसी-420928वाई), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार मनबीर सिंह (जेसी-420962वाई), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार अशोक कुमार शर्मा (जेसी-420964के), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार उदयवीर सिंह (जेसी-420985ए), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार मुम्मीना अप्पा राव (जेसी-420970एक्स), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार हरे राम मिश्रा (जेसी-420972एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-420974एन), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार सुनील गोगोई (जेसी-421030वाई), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार सरबजीत सिंह (जेसी-421051पी), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार जगदानंद मिश्रा (जेसी-421111वाई), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार सुभाष कुमार बी (जेसी-421165ए), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार मुलायम सिंह (जेसी-421178एक्स), 08 जनवरी 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-421221एन), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार शिओ कुमार सिंह (जेसी-421222डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-421223वाई), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार नरेन्द्र नागर (जेसी-421302एन), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार कमलेश कुमार सिंह (जेसी-421259एक्स), 01 जनवरी 2011

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-420422ए), 04 अक्टूबर 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सत्यवीर (जेसी-420968ए), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार जय पाल (जेसी-421081एम), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार ज्ञानेश्वर पाटील (जेसी-420554एन), 24 जनवरी 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार किरत सिंह (जेसी-420571एन), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार फुल सिंह (जेसी-420601ए), 17 जनवरी 2011 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

नायब सूबेदार महेंद्र नाथ मोहंता (जेसी-421229ए), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार एस अरोकीया स्वामी (जेसी-421258पी), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार श्याम पाल सिंह (जेसी-421261पी), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार कटाकम रवी (जेसी-421265एल), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार के कुमारन उर्फ वेलु (जेसी-421264एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार लालन कुमार (जेसी-421303डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर (जेसी-420814एन), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार अंगद सिंह यादव (जेसी-421140एन), 01 फरवरी 2011

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) त्रिवेणी उपाध्याय (जेसी-420791एक्स), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 14915718एल अब जेसी-421798एन), 26 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार शेख इनुस ईब्राहिम (सं. 14916523पी अब जेसी-421799डब्ल्यू), 26 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राधे श्याम (सं. 14916575एल अब जेसी-421800ए), 28 अक्टूबर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर से दी जाती है)

हवलदार पित्तम व्ही सुब्बा रेड्डी (सं. 14917396एक्स अब जेसी-421801एच), 25 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुपेंदर सिंह (सं. 2987426एक्स अब जेसी-421802एल), 17 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 14915439एच अब जेसी-421803एन), 14 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 14917022एफ अब जेसी-421804डब्ल्यू), 24 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार शिओ करन (सं. 14916592एल अब जेसी-421805वाई), 01 जनवरी 2011 *

हवलदार सय्यद अनीस हकीमसाहेब (सं. 14918826एच अब जेसी-421806एफ), 07 जनवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार राम प्रसाद (सं. 14917064एन अब जेसी-421807के), 06 जनवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार अय्यप्पा ए बी (सं. 14917831एफ अब जेसी-421808एम), 01 जनवरी 2011

हवलदार प्रेम कुमार वी एस (सं. 14918046एक्स अब जेसी-421809पी), 01 जनवरी 2011

हवलदार क्रिशन कुमार (सं. 14917949एच अब जेसी-421810के), 01 जनवरी 2011

हवलदार राम पाल (सं. 14918254एम अब जेसी-421811एम), 01 जनवरी 2011

हवलदार के राजु कुमार (सं. 14919189के अब जेसी-421812पी), 01 जनवरी 2011

हवलदार महेंद्रा सिंगा (सं. 14919097एक्स अब जेसी-421813एक्स), 01 जनवरी 2011

हवलदार ललित सिंह (सं. 14919495वाई अब जेसी-421814ए), 01 जनवरी 2011

हवलदार जमिल अहमद (सं. 14919531वाई अब जेसी-421815एच), 01 जनवरी 2011

हवलदार शेवाले बाबासाहेब हरीभाऊ (सं. 14919532एफ अब जेसी-421816एल), 15 जनवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार नरेंद्र कुमार दूबे (सं. 14914888एल अब जेसी-421772वाई), 09 नवम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राजबीर सिंह (सं. 14914893डब्ल्यू अब जेसी-421773एफ), 17 नवम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार आनंद सिंह (सं. 14915088वाई अब जेसी-421774के), 17 नवम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार वीरेंद्र सिंह गुर्जर (सं. 14915200ए अब जेसी-421775एम), 03 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार हंस राज (सं. 14915853एफ अब जेसी-421776पी), 30 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार खिम सिंह सेलाकोटी (सं. 14915295एल अब जेसी-421777एक्स), 26 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार हिरा लाल (सं. 14918505एल अब जेसी-421778ए), 20 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार उत्तम चंद (सं. 14917016एन अब जेसी-421779एच), 24 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार धरम वीर सिंह (सं. 2987679एम अब जेसी-421780एक्स), 14 जनवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार लतफुल हक (सं. 14915892ए अब जेसी-421781ए), 06 जनवरी 2011*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार सुधीर (सं. 14916253एल अब जेसी-421782एच), 01 जनवरी 2011

हवलदार महाराम सिंह (सं. 14916111एन अब जेसी-421783एल), 01 जनवरी 2011

हवलदार रॉय मॉथ्यु (सं. 14916181एम अब जेसी-421784एन), 01 जनवरी 2011

हवलदार शमशेर सिंह (सं. 14916386एफ अब जेसी-421785डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

हवलदार करानगीया प्रभात भाया (सं. 14915988एच अब जेसी-421786वाई), 01 जनवरी 2011

हवलदार कलाम सिंह (सं. 14917269एच अब जेसी-421787एफ),
10 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार बाबू राम खत्री (सं. 14916749ए अब जेसी-421788के),
01 जनवरी 2011

हवलदार राम मिलन वर्मा (सं. 14916581वाई अब जेसी-421789एम),
01 जनवरी 2011

हवलदार अरूण कुमार (सं. 14915881एन अब जेसी-421790एफ),
01 जनवरी 2011

हवलदार ए इबोचो सिंधा (सं. 14915945एन अब जेसी-421791के),
01 जनवरी 2011

हवलदार जोगिन्दर (सं. 14919535पी अब जेसी-421792एम), 01 जनवरी
2011

हवलदार लक्ष्मय्या जी (सं. 14919267डब्ल्यू अब जेसी-421793पी),
01 जनवरी 2011

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14917525एम अब जेसी-421794एक्स),
01 जनवरी 2011

हवलदार राकेश कुमार (सं. 14918431एफ अब जेसी-421795ए),
05 जनवरी 2011 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार उत्तम सिंह (सं. 14917135के अब जेसी-421796एच),
01 जनवरी 2011

हवलदार बिरबल (सं. 14919091डब्ल्यू अब जेसी-421797एल),
01 जनवरी 2011

हवलदार (एसकेटी) राजेश कुमार यादव (सं. 14917931एम अब
जेसी-421817एन), 03 जनवरी 2011 *

*[नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव
डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है]

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) कमलेश चन्द्र (सं. 14916791वाई अब
जेसी-421818डब्ल्यू), 01 फरवरी 2011

हवलदार (लिपिक) खराडे आनंदराव तुकाराम (सं. 14916801एक्स
अब जेसी-421819वाई), 01 फरवरी 2011

जे राय चौधरी
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 182, दिनांक 16 मार्च 2011---राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार टेक स्माल आर्म्स के रैंक में

पट्टमा लोचना महांता (जेसी-760873एफ), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

बाबू लाल (जेसी-759681एक्स), 03 नवम्बर 2010/01 नवम्बर
2010 *

रविन्दर कुमार (जेसी-759677पी), 01 नवम्बर 2010

मन पाल सिंह (जेसी-759680पी), 01 नवम्बर 2010

चन्डी प्रसाद तिवारी (जेसी-759679ए), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

राम केवल यादव (जेसी-759660एफ), 01 नवम्बर 2010

सुरिन्दर कुमार (जेसी-759667एम), 01 नवम्बर 2010

रमेश चंद यादव (जेसी-759673वाई), 02 नवम्बर 2010/01 नवम्बर
2010 *

उदय भान (जेसी-759674एफ), 01 नवम्बर 2010

नारायण चन्द्र सरकार (जेसी-758672डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

यस अलिमुड्डिन (जेसी-759670एल), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक जी सी ई

भँवर सिंह (जेसी-759600एम), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

गुरजंत सिंह (जेसी-759549एक्स), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

बीरेन्दर सिंह (जेसी-759710एफ), 01 नवम्बर 2010

संजय सिंह (जेसी-759559एफ), 02 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

सूबेदार ऑटो टेक इलेक्ट ए व्हीकल के रैंक में

मानाराम पूनिया (जेसी-763253डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार ऑटो टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में

बलवान सिंह (जेसी-763273के), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार आटो टेक बी व्हीकल के रैंक में सी

चतुर्धन महतो (जेसी-763294ए), 01 नवम्बर 2010/22 जून 2010 *

नन्हे लाल (जेसी-763822वाई), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (ए एफ) के रैंक में
सुसांता निओगी (जेसी-760960पी), 18 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

चंद्र प्रकाश पी (जेसी-760959ए), 15 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

सुभास चंद (जेसी-760958एक्स), 16 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010

सूबेदार टेक ए ई एफ (ए ई)

लाल मोहर राय (जेसी-760952डब्ल्यू), 16 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

प्रमोद कुमार सिंह (जेसी-760961एक्स), 16 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

सूबेदार टेक ए वी एन इलेक्ट के रैंक में

हरे राम सिंह यादव (जेसी-760953वाई), 03 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

सूबेदार टेक ए ई एफ (ए वी एन)

राजेन्द्र कुमार (जेसी-760971एफ), 22 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

सूबेदार टेक ए वी एफ (ए एफ) के रैंक में

मित्रा भानु मोहकुड (जेसी-760956एम), 16 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

*(पिछली तारीख से बरीयता दी जाती है।)

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राइवर (रिकवरी) के रैंक में

सुशील कुमार शर्मा (सं. 14583623वाई अब जेसी-765345डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एमटी)

घन श्याम पाण्डेय (सं. 14586306एच अब जेसी-765280वाई), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

सुरेन्द्र सिंह (सं. 14573468पी अब जेसी-765297एम), 01 अक्टूबर 2010

राज कुमार (सं. 14574652एम अब जेसी-765300एफ), 01 अक्टूबर 2010

सोम प्रकाश तिवारी (सं. 14574704एक्स अब जेसी-765301एल), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार (एस के टी)

हरि ओम (सं. 14605116एन अब जेसी-765304एक्स), 06 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

जितेन्द्र सिंह सिकरवार (सं. 14613855पी अब जेसी-765305के), 01 अक्टूबर 2010

उमेश सिंह (सं. 14613863एन अब जेसी-765306एच), 01 अक्टूबर 2010

गजेन्द्र सिंह राणा (सं. 14613882वाई अब जेसी-765308एन), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

केंद्रे मारुति गणपति (सं. 14624592एफ अब जेसी-765331एफ), 01 सितम्बर 2010

एम डी कौसर अली (सं. 14618546डब्ल्यू अब जेसी-765365पी), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में

दिनेश बाबू टी (सं. 14617752एन अब जेसी-765356एन), 01 अक्टूबर 2010

हरभजन (सं. 14592582एफ अब जेसी-765357डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010/01 मार्च 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलैक्ट के रैंक में

जी लीला शंकर (सं. 14618978एल अब जेसी-765358वाई), 04 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

राम प्रसाद राय (सं. 14619055एम अब जेसी-765359एफ), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

वी आर मधिवनन (सं. 14622375एम अब जेसी-765360डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

आशुतोष कुमार (सं. 14623324एल अब जेसी-765362एफ), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलैक्ट के रैंक में

जितेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14618607एच अब जेसी-765363के), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

मनोज कुमार (सं. 14628532के अब जेसी-765368एच), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

गुजर अनिल हरिसिंह (सं. 14622604एम अब जेसी-765369एल), 01 अक्टूबर 2010

श्यामल चक्रपाणि (सं. 14619066वाई अब जेसी-765371एच), 01 अक्टूबर 2010/01 अगस्त 2010*

दिलीप कुमार भारद्वाज (सं. 14619618एफ अब जेसी-765375वाई), 01 अक्टूबर 2010

जितेन्द्र सिंह रावत (सं. 14619592एक्स अब जेसी-765376एफ),
01 अक्टूबर 2010

दिलावर सिंह मल्लिक (सं. 14619679वाई अब जेसी-765377के),
01 अक्टूबर 2010

वैकटेश के (सं. 14620092एम अब जेसी-765379पी), 01 अक्टूबर
2010

परगोउडा पटिल (सं. 14619524के अब जेसी-765382पी),
01 अक्टूबर 2010

जी नागराजुलु (सं. 14619812डब्ल्यू अब जेसी-765384ए),
01 अक्टूबर 2010

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
एस रसुल (सं. 14512776वाई अब जेसी-765717एफ), 17 जून
1995

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
एस रसुल (जेसी-765717एफ), 01 जनवरी 1998

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में
एम पोनु दुराई (सं. 14615172ए अब जेसी-765318एक्स),
29 सितम्बर 2010/01 मार्च 2010*

शीश पाल (सं. 14617276ए अब जेसी-765319ए), 13 सितम्बर
2010/01 सितम्बर 2010*

दविन्दर सिंह (सं. 14617531एफ अब जेसी-765320पी),
09 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में
साहुकारी धसाराधा राव (सं. 14605131एच अब जेसी-765322ए),
10 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

रामनिवास नेहेलिया (सं. 14609459एफ अब जेसी-765323एच),
10 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

जय सिंह (सं. 14618684एक्स अब जेसी-765324एल), 09 सितम्बर
2010/01 सितम्बर 2010*

विनोद कुमार आर (सं. 14616244एल अब जेसी-765327वाई),
17 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलेक्ट के रैंक में

विनोद कुमार मिश्रा (सं. 14618113वाई अब जेसी-765328एफ),
09 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

राजीव कुमार (सं. 14618603एम अब जेसी-765329के),
09 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

अरविन्द जेना (सं. 14618623ए अब जेसी-765330वाई),
08 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
मंजीत सिंह (सं. 14625089डब्ल्यू अब जेसी-765332एक्स),
10 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

धीरेन्द्र सिंह (सं. 14626293एफ अब जेसी-765333एम), 13 सितम्बर
2010/01 सितम्बर 2010*

एम डी इस्तयाक अली (सं. 14625747एक्स अब जेसी-765334पी),
20 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

जयपाल सिंह (सं. 14625860एम अब जेसी-765335एक्स),
09 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

किशोर मंडल (सं. 14625778एक्स अब जेसी-765336ए),
09 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

शिव दत्त (सं. 14625978एन अब जेसी-765337एच), 13 सितम्बर
2010/01 सितम्बर 2010*

यदु नाथ (सं. 14623074पी अब जेसी-765364एम), 01 अक्टूबर
2010/01 दिसम्बर 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में
दिलीप कुमार मंडल (सं. 14628460एल अब जेसी-765338एल),
10 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
सूबे सिंह (सं. 14618452वाई अब जेसी-765339एन), 09 सितम्बर
2010/01 सितम्बर 2010*

सीता राम अहीर (सं. 14618542ए अब जेसी-765341एल),
01 सितम्बर 2010

प्रवीश कुमार ई (सं. 14618569एक्स अब जेसी-765342एन),
30 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

एन रवि चन्द्रन (सं. 14618855वाई अब जेसी-765343डब्ल्यू),
09 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

सुरेश चन्द्र (सं. 14619023के अब जेसी-765344वाई), 15 सितम्बर
2010/01 सितम्बर 2010*

राजू समादेर (सं. 14619043एक्स अब जेसी-765345एफ),
06 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

विराजदार चन्द्र शेखर यजमान (सं. 14619754एक्स अब
जेसी-765346के), 16 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

अनुप कुमार राय (सं. 14620044एम अब जेसी-765347एम),
09 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

विक्रम सिंह (सं. 14620443डब्ल्यू अब जेसी-765348पी),
10 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

धुमला बाबू (सं. 14620466एक्स अब जेसी-765349एक्स),
09 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

राज बहादुर सिंह (सं. 14620676एक्स अब जेसी-765350एम),
13 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

मेघपरा श्रीरिश कुमार (सं. 14619545एन अब जेसी-765351पी),
09 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

भाट प्रदीप राम चन्द्र (सं. 14619745डब्ल्यू अब जेसी-765352एच),
16 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएफ (ईईएफ) के रैंक में

जे पी जेरल्ड मनीकोदी (सं. 14636408एक्स अब जेसी-
765354एच), 13 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएफ (ए एफ) के रैंक में

करमजीत सिंह (सं. 14636045वाई अब जेसी-765355एल),
14 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

बाबू ई डी (सं. 14589987एफ अब जेसी-765392वाई), 01 अक्टूबर
2010

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

सूबेदार वेल्डर के रैंक में

कोसिरेड्डी डब्ल्यू एस वी पी बाबू (जेसी-760936वाई), 01 सितम्बर
2010

सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

श्री ओम प्रकाश सिंह (जेसी-759534पी), 01 अक्टूबर 2010

ओम प्रकाश जोशी (जेसी-759598ए), 01 नवम्बर 2010

गिरधारी लाल गुजर (जेसी-759548पी), 01 नवम्बर 2010

तुलसीदास महंता (जेसी-759550एम), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार एसकेटी के रैंक में

ईश्वर सिंह (जेसी-762877डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

राम सिंह नेगी (जेसी-763131एम), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक कम्प्यूनिकेशन के रैंक में

अब्दुल साबुर बंभुइया (जेसी-759556एन), 04 अक्टूबर 2010/
01 अक्टूबर 2010*

राज बहादुर (जेसी-761725एच), 20 अक्टूबर 2010/22 जून 2010*

सूबेदार अटो टेक ए व्हीकल रैंक में

मुहम्मद अहसान (जेसी-762928वाई), 14 अक्टूबर 2010/22 जून
2010*

प्रमोद सिंह बिष्ट (जेसी-762214एल), 19 अक्टूबर 2010/22 जून
2010*

सुशांत कुमार दास (जेसी-763491एच), 01 नवम्बर 2010/01 अगस्त
2010*

सूबेदार मास्टर टेक एवीएन इलैक्ट के रैंक में

सुरेश कुमार राय (जेसी-761130एल), 28 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर
2010*

सूबेदार अर्माइन्ट टेक (एफडी) के रैंक में

विष्णु दत्त (जेसी-753299वाई), 01 नवम्बर 2010/22 जून 2010*

सूबेदार अटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

रमा शंकर पांडेय (जेसी-763316एन), 01 नवम्बर 2010/01 जुलाई
2010*

अनिल कुमार (जेसी-763820एन), 16 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर
2010*

घन श्याम लाल मुरारी (जेसी-763716ए), 01 नवम्बर 2010/
01 अगस्त 2010*

सूबेदार सी एण्ड जे के रैंक में

राधे श्याम सिंह (जेसी-762924एच), 01 नवम्बर 2010/01 जुलाई
2010*

सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

भरत सी एच भराली (जेसी-760546डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

शिव नाथ ठाकुर (जेसी-760544एल), 01 नवम्बर 2010

सुभाष चन्द्र झा (जेसी-760590ए), 01 नवम्बर 2010

पाटिल सदाशिव श्रिपति (जेसी-760588एच), 01 नवम्बर 2010

मंजीत सिंह बाजवा (जेसी-760591एच), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक टेक गन के रैंक में

आशिष कुमार ठाकुर (जेसी-759661के), 01 नवम्बर 2010

कृष्णा चन्द्रा दलेई (जेसी-759669डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

किशोर दास (जेसी-759671एन), 01 नवम्बर 2010

कजोतन नायक (जेसी-769665ए), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार टेक रडार के रैंक में

रविकांत यादव (जेसी-759678एक्स), 01 नवम्बर 2010

दिनेश कुमार (जेसी-759676एम), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

गंगा बहादुर थापा (जेसी-762482पी), 01 नवम्बर 2010

उगीर सिंह (जेसी-762483एक्स), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

उमेश कुमार सिंह यादव (जेसी-759560डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मशिनिसट के रैंक में

विनायक डालवी (जेसी-761133वाई), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार अटो टेक एवीएफ (एडएन)

ओम पाल (जेसी-762825ए), 23 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 183, दिनांक 17 मार्च 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

क्वचित कोर

स्थायी रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार अंकुश भानु दास टाट (जेसी-242535वाई),
01 फरवरी 2010

नायब रिसालदार विजय पाल सिंह चौहान (जेसी-242976पी),
23 मार्च 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
12 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पूरखा राम (जेसी-243269एक्स), 13 मार्च 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
12 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सज्जन सिंह (जेसी-243270एम), 13 मार्च 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
12 फरवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार धन सिंह यादव (जेसी-242276एफ), 01 अप्रैल
2010

नायब रिसालदार चोंद सिंह (जेसी-241094एफ), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार प्रहलाद कुमार (जेसी-241743एफ), 01 अप्रैल
2010

नायब रिसालदार जनारदन टी (जेसी-242255एन), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार प्रकाश बी (जेसी-242341डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार परस राम (जेसी-242319एल), 15 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सतनाम सिंह (जेसी-242805एच), 06 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
11 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-242806एल), 06 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
11 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रनधीर सिंह (जेसी-242914पी), 14 जून 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
11 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-242462एक्स), 28 अप्रैल
2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जंगली साह (जेसी-242784एक्स), 12 मई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलराज सिंह (जेसी-242879एक्स), 13 अप्रैल
2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अतीराज सिंह (जेसी-242989एम), 01 अप्रैल
2010

नायब रिसालदार वेद राम (जेसी-242946एक्स), 23 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
17 मार्च 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जगजीत सिंह (जेसी-241520के), 26 अप्रैल 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अमर चन्द (जेसी-242257डब्ल्यू), 01 मई 2010

नायब रिसालदार राम फल (जेसी-242260डब्ल्यू), 02 मई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अंबेकर गणेश गाजाराम (जेसी-242972वाई),
19 मई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम कुमार (जेसी-243041एफ), 13 मई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

- नायब रिसालदार अमरजीत सिंह (जेसी-242699पी), 01 जनवरी 2010
- नायब रिसालदार जसवन्त सिंह (जेसी-242553एफ), 13 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार रूप सिंह (जेसी-243242ए), 13 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार चन्दन सिंह (जेसी-242653एम), 07 जुलाई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार अमरजीत सिंह (जेसी-242790एल), 01 अप्रैल 2010
- नायब रिसालदार मन्जीत सिंह (जेसी-243037वाई), 01 अप्रैल 2010
- नायब रिसालदार भाबा राजन दास (जेसी-243358डब्ल्यू), 13 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार संनधोकू राम (जेसी-242830एफ), 10 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार मंगत राम (जेसी-242845के), 10 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार रामा चन्द्रन नायर पी एन (जेसी-242811डब्ल्यू), 11 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जेसी-242928पी), 10 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार रघवीर सिंह (जेसी-242933ए), 01 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार जाधव अप्पासो बाबासो (जेसी-243005डब्ल्यू), 11 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार श्री कृष्ण (जेसी-243197वाई), 10 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार चन्दू लाल शर्मा (जेसी-243262एन), 06 जून 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार मलखान सिंह (जेसी-242507एम), 16 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार प्रताप सिंह (जेसी-242761डब्ल्यू), 01 मई 2010 *
- नायब रिसालदार हरनाम सिंह (जेसी-242758डब्ल्यू), 03 जून 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार मोहन सिंह (जेसी-242627एल), 01 मई 2010
- नायब रिसालदार करनेल सिंह (जेसी-242826वाई), 01 मई 2010
- नायब रिसालदार राज कुमार सिंह (जेसी-242788एन), 09 जून 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार देवेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-243274एच), 24 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार राम स्वरूप (जेसी-243462के), 06 जुलाई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार करनेल सिंह (जेसी-242365ए), 21 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार मुकेश सिंह (जेसी-243339एल), 12 अक्टूबर 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार धर्माना सूर्यनारायना (जेसी-242873डब्ल्यू), 05 जून 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार यश पाल सिंह (जेसी-242863एम), 30 जून 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)
- नायब रिसालदार वाघमारे शिवाजी कोंडीबा (जेसी-243141एम), 24 मई 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गुरनाम सिंह (जेसी-243097एन), 01 अप्रैल 2010

नायब रिसालदार कमल किशोर (जेसी-242902ए), 15 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार धन्ना राम (जेसी-243540डब्ल्यू), 09 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मोहम्मद अनवर अली (जेसी-242890डब्ल्यू), 03 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रमेश कुमार (जेसी-242889एफ), 05 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम किशोर (जेसी-243059एक्स), 10 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुभाष चंद (जेसी-243402पी), 16 जून 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सदानन्दा स्वाईन (जेसी-243403एक्स), 16 जून 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरजीत सिंह (जेसी-242862के), 01 जुलाई 2010

नायब रिसालदार रिचवपाल राय (जेसी-243118वाई), 10 अगस्त 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कुलदीप सिंह (जेसी-241973पी), 01 जुलाई 2010

नायब रिसालदार कंवलजीत सिंह (जेसी-242539पी), 15 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-242541एम), 06 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जय करन (जेसी-243159एच), 02 अगस्त 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शिव दत्त (जेसी-242909के), 01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार रंजीत सिंह (जेसी-242438एफ), 17 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार फिरोज खान (जेसी-242447एच), 17 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार लिलू खान (जेसी-242641एक्स), 17 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जगफूल सिंह (जेसी-241855एफ), 02 अगस्त 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रत्तन सिंह (जेसी-241588एल), 28 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बिर सिंह (जेसी-241991एक्स), 02 अगस्त 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्यारा सिंह (जेसी-242302एक्स), 14 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलदेव सिंह (जेसी-242359एम), 14 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गुरनाम सिंह (जेसी-242448एल), 15 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अर्जुन सिंह (जेसी-242842डब्ल्यू), 17 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रदिप कुमार (जेसी-242953एन), 16 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार साहब सिंह (जेसी-241730के), 14 जुलाई 2010*
 *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार चुन्नी लाल (जेसी-243909डब्ल्यू), 17 जुलाई
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शिशुपाल सिंह (जेसी-242039एक्स), 21 अगस्त
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बाबू सिंह (जेसी-242954डब्ल्यू), 17 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार चुन्नी लाल (जेसी-241819डब्ल्यू), 16 जुलाई
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ओम प्रकाश (जेसी-242149एम), 16 जुलाई
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रदिप कुमार (जेसी-243585डब्ल्यू), 16 अगस्त
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार धरम बीर (जेसी-242780एफ), 01 जून 2010*

नायब रिसालदार शिवदन सिंह हाडा (जेसी-243029ए), 01 जुलाई
 2010*

नायब रिसालदार कृष्ण के (जेसी-242970एन), 31 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सज्जन सिंह (जेसी-242799ए), 23 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सवाई सिंह (जेसी-242800के), 18 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलजीत सिंह (जेसी-242948एच), 17 जुलाई
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 28 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार शिव चरन सिंह (जेसी-242648एफ), 29 जुलाई
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सतबीर सिंह बेनिवाल (जेसी-242018एफ), 01 जुलाई
 2010*

नायब रिसालदार राजीव के पी (जेसी-242622एम), 15 अगस्त
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गुलवंत सिंह (जेसी-242169ए), 28 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुलीन्द्र सिंह (जेसी-242170पी), 28 जुलाई 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हरी सिंह (जेसी-242278एम), 03 अगस्त 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 04 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अशोक कुमार (जेसी-242381एक्स), 02 अगस्त
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राकेश कुमार (जेसी-242952एल), 02 अगस्त
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार उदम सिंह चाहार (जेसी-243583एल), 20 अगस्त
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अजय कुमार ए (जेसी-242752पी), 02 अगस्त
 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दलबीर सिंह (जेसी-243584एन), 02 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-243530एम), 04 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रेम चन्द (जेसी-243531पी), 31 जुलाई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सरवन कुमार (जेसी-243586वाई), 31 जुलाई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार देव राम चौधरी (जेसी-243103डब्ल्यू), 26 जुलाई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हवा सिंह (जेसी-242891वाई), 01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार नेत्रपाल (जेसी-242468वाई), 03 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कुलजिन्द्र सिंह (जेसी-242136पी), 24 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जंग बहादुर सिंह (जेसी-242573पी), 28 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरेश कुमार (जेसी-243150एन), 26 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार करमबिर सिंह (जेसी-242801एम), 02 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम निवास (जेसी-243104वाई), 02 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मोहिन्द्र सिंह (जेसी-243456डब्ल्यू), 02 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रभात सिंह (जेसी-241988एक्स), 01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार बाबू लाल (जेसी-243404ए), 07 सितम्बर 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलवान सिंह (जेसी-243078एच), 12 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रामा चन्द्रन नायर एस (जेसी-242670एम), 31 जुलाई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दिनु खान (जेसी-242949एल), 31 जुलाई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार केशो दास (जेसी-242950ए), 31 जुलाई 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार घनशाम सिंह भगोड़ (जेसी-242745वाई), 02 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रघवीर सिंह (जेसी-242449एन), 02 अगस्त 2010 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मंजीत सिंह (जेसी-243093एक्स), 01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार नरेन्द्र कुमार यादव (जेसी-243124एम), 01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार रमेश चन्दर (जेसी-242594एल), 01 अगस्त 2010

नायब रिसालदार साहीब सिंह (जेसी-242844एफ), 01 सितम्बर 2010

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार संजय कुमार (सं. 15462572के अब जेसी-244694पी),
20 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार एम डी नेकबत अली (सं. 15463522एल अब
जेसी-244695एक्स), 02 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार धर्मा सिंह (सं. 15462743एल अब जेसी-244714एक्स),
08 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार रूप सिंह यादव (सं. 15462774एक्स अब जेसी-244715ए),
08 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सलोखे सुधीर भिकाजी (सं. 15462756एच अब
जेसी-244716एच), 16 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार निम्बालकर आनंदराव बालासाहेब (सं. 15462758एन अब
जेसी-244717एल), 08 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार अरविन्द सिंह (सं. 15462780वाई अब जेसी-244720एल),
16 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार बलजिन्दर सिंह (सं. 15464611डब्ल्यू अब जेसी-244732ए),
23 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार करनल सिंह (सं. 15465284एच अब जेसी-244733एच),
23 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप सिंह (सं. 15461856एफ अब जेसी-244764एच),
25 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार जुगराज सिंह (सं. 15461264एक्स अब जेसी-244766एन),
25 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार गुडू लाल (सं. 15463238पी अब जेसी-244773के),
24 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार कमल देव कुमार सिंह (सं. 15463611के अब जेसी-
244774एम), 26 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार शिवअप्पा घोदामेरी (सं. 1089719पी अब जेसी-
244779एल), 23 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार बलवान सिंह (सं. 1089901पी अब जेसी-244780ए),
23 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार शेख मौलाली (सं. 1089734के अब जेसी-244782एल),
23 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार रोजन्द्र सिंह तोमर (सं. 15463550एक्स अब
जेसी-244696ए), 01 दिसम्बर 2010

दफादार ई सिवा कुमार (सं. 1089722पी अब जेसी-244708के),
01 दिसम्बर 2010

दफादार राम बिहारी मिश्रा (सं. 1089775एन अब जेसी-
244709एम), 01 दिसम्बर 2010

दफादार हनुमान सिंह (सं. 1089679वाई अब जेसी-244724एफ),
22 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार वीरभद्रय सिंह (सं. 1099301ए अब जेसी-244741एफ),
01 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार उमरदीन (सं. 1099735ए अब जेसी-244742के),
01 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार लथफुर रहेमान लशकर (सं. 1099704ए अब जेसी-
244745एक्स), 01 दिसम्बर 2010

दफादार जयपाल सिंह शेखावत (सं. 1099675डब्ल्यू अब जेसी-
244744पी), 07 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र सिंह (सं. 15464105एल अब जेसी-244751एल),
01 दिसम्बर 2010

दफादार मुकेश कुमार (सं. 15463583एच अब जेसी-244757एम),
03 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार गोपाल सिंह (सं. 15462613एच अब जेसी-244765एल),
02 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार भद्र कौशिक कुमार कन्नू भाई (सं. 15462176एन अब
जेसी-244771वाई), 02 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार रविन्द्र सिंह (सं. 15464100एम अब जेसी-244775पी),
22 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार नरेन्द्र स्वरागयरे (सं. 15464585ए अब जेसी-244777ए),
22 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार ब्रिजभूषण (सं. 15462655पी अब जेसी-244783एन),
01 दिसम्बर 2010

दफादार सतबीर सिंह (सं. 15466127एच अब जेसी-244784डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2010

दफादार दुर्गा राम (सं. 15464880एच अब जेसी-244788एम),
01 दिसम्बर 2010

दफादार भूपेन्द्र सिंह (सं. 15465032डब्ल्यू अब जेसी-244789पी),
07 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार छबोलू कसन्ना (सं. 15467553एच अब जेसी-244790के),
03 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कमलजीत सिंह (सं. 1089826डब्ल्यू अब जेसी-244794ए),
04 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार पैढी गुनासेखर राव (सं. 15461338एफ अब जेसी-
244801एल), 04 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप (सं. 15464360एक्स अब जेसी-244814एच),
07 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कुमार हनुमन्ता गोडा पाटिल (सं. 15467671डब्ल्यू अब
जेसी-244815एल), 10 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सुदर्शन कुमार (सं. 15465072एक्स अब जेसी-
244816एन), 07 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार हनुमान राम चौधरी (सं. 1089369एन अब जेसी-
244818वाई), 07 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार संजीव कुमार डरदी (सं. 1088445एच अब जेसी-
244834डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेश कुमार (सं. 1089388वाई अब जेसी-244835वाई),
07 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार देवी सिंह चौहान (सं. 1088127वाई अब जेसी-244836एफ),
07 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार जलालुद्दीन अमानगी (सं. 15462027ए अब जेसी-
244710एफ), 10 नवम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप राज (सं. 15464035एक्स अब जेसी-244739के),
01 दिसम्बर 2010

दफादार रोशन सिंह (सं. 1099036पी अब जेसी-244743एम),
01 दिसम्बर 2010

दफादार प्रभजोत सिंह (सं. 15462530एक्स अब जेसी-244746ए),
04 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार मुकेश (सं. 1089433ए अब जेसी-244760एम),
01 दिसम्बर 2010

दफादार संत लाल शर्मा (सं. 1099376एक्स अब
जेसी-244767डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

दफादार अली अजगर खान (सं. 15464854एफ अब जेसी-
244778एच), 11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार संजीव कुमार (सं. 15461099एक्स अब जेसी-244791एम),
03 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार वीरपाल सिंह (सं. 15461220ए अब जेसी-244792पी),
03 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार भूपेन्द्र सिंह (सं. 15461622एक्स अब जेसी-244793एक्स),
03 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कंस राज (सं. 1087254एफ अब जेसी-244803डब्ल्यू),
18 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कुलविन्द्र सिंह (सं. 15465063डब्ल्यू अब जेसी-
244804वाई), 06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार शिव राम सैनी (सं. 1098843एक्स अब जेसी-244805एफ),
06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कुलविन्द्र सिंह (सं. 1099053पी अब जेसी-244806के),
06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार एम चन्दाहासा राजू (सं. 1098787के अब जेसी-244807एम),
06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार राजन सिंह (सं. 1098629पी अब जेसी-244811पी),
07 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार चन्द्र बोस (सं. 1089529एच अब जेसी-244819एफ),
06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार धरमबीर (सं. 1089635एफ अब जेसी-244820डब्ल्यू),
06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार प्रकाश (सं. 1089884ए अब जेसी-244821वाई),
06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार मनोज कुमार (सं. 15461014डब्ल्यू अब जेसी-
244822एफ), 06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार खेडकर केशव नीवृत्ती (सं. 15462351एक्स अब जेसी-
244824एम), 06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र सिंह (सं. 15462418एल अब जेसी-244826एक्स),
06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार जयापालन एस (सं. 15462318ए अब जेसी-244827ए),
06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार श्रवण कुमार (सं. 15462867ए अब जेसी-244829एल),
06 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार नरेन्द्र सिंह (सं. 15462355एन अब जेसी-244825पी),
08 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार लायजू जी (सं. 15462448एच अब जेसी-244828एच),
14 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कामता प्रसाद (सं. 1089417एच अब जेसी-244781एच),
03 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सतपाल सिंह (सं. 1089048डब्ल्यू अब जेसी-244853एफ),
11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मार्च 2010 से दी जाती है)

दफादार जगदिश राम (सं. 1089050एन अब जेसी-244850एन),
14 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार कुलविन्द्र सिंह (सं. 1098655डब्ल्यू अब जेसी-244855एम),
14 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेश कुमार (सं. 1099448डब्ल्यू अब जेसी-
244860एक्स), 14 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार जी व्यंकटा कोडा रेड्डी (सं. 15462446एक्स अब जेसी-
244858ए), 01 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार बिरेन्द्र सिंह (सं. 1088378एच अब जेसी-244799वाई),
04 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार कमलेश वानखेडे (सं. 15461408पी अब जेसी-
244867एफ), 11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कोंदामुडी श्रीनिवासा राव (सं. 15461434डब्ल्यू अब जेसी-
244868के), 11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सी सिंगाराम (सं. 15462319एच अब जेसी-244869एम),
11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार धनबीर यादव (सं. 1089807एल अब जेसी-244859एच),
11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार जितेन्द्र नाथ राय (सं. 15464276एक्स अब जेसी-
244870एफ), 16 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार शम्भू नाथ सिंह (सं. 15463393डब्ल्यू अब जेसी-244871के),
13 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार संजय कुमार धामा (सं. 15463747एन अब जेसी-
244873पी), 13 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार प्रभु राम जाट (सं. 15463926एन अब जेसी-244874एक्स),
13 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार राखा हरी पंडित (सं. 15461008एच अब जेसी-244878एन), 11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार इन्द्रजीत सिंह (सं. 15461114ए अब जेसी-244879डब्ल्यू), 11 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार इन्द्रजीत सिंह (सं. 15461482डब्ल्यू अब जेसी-244880एल), 13 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार आर मुरुमानदम (सं. 15461823डब्ल्यू अब जेसी-244881एन), 01 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार विजय कुमार (सं. 15463284के अब जेसी-244892ए), 16 दिसम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार देरानगुला पुल्लईह (सं. 15461061एन अब जेसी-244504एक्स), 12 जुलाई 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार खोसे शंकर विजय (सं. 15462556एम अब जेसी-244585एच), 01 सितम्बर 2010

दफादार संजीव कुमार (सं. 15461327पी अब जेसी-244391ए), 21 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार शिवा कुमार के (सं. 15461629एफ अब जेसी-244591डब्ल्यू), 21 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार चरनजीत सिंह (सं. 15464184एल अब जेसी-244636एल), 13 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार रविन्द्र कुमार (सं. 1089184एम अब जेसी-244645एम), 20 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार दविन्द्र सिंह (सं. 15461627डब्ल्यू अब जेसी-244648ए), 06 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र सिंह (सं. 15462089ए अब जेसी-244652एच), 10 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार शिवाजी पाटिल (सं. 15462026एक्स अब जेसी-244653एल), 10 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार मोहिन्द्र सिंह (सं. 15464876ए अब जेसी-244654एन), 11 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार अनिल कुमार शर्मा (सं. 1089060एक्स अब जेसी-244655डब्ल्यू), 13 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार दिलीप कुमार (सं. 1099621पी अब जेसी-244659एम), 10 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार अकलेश कुमार (सं. 1088177के अब जेसी-244660एफ), 10 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार वी श्रीनिवासन (सं. 1099354वाई अब जेसी-244662एम), 14 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

दफादार अजीत सिंह (सं. 1099455एम अब जेसी-244663पी), 25 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार एस सुश कुमार (सं. 1099381एच अब जेसी-244664एक्स), 16 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार दिनेश चन्द्र सिंह चिलवाल (सं. 1099508ए अब जेसी-244667एल), 17 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 15462302पी अब जेसी-244668एन), 21 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार मुकेश कुमार (सं. 1099024ए अब जेसी-244661के), 18 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

दफादार बनवारी लाल (सं. 1089220एम अब जेसी-244665ए), 21 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार विजय बहादुर सिंह (सं. 1099171एच अब जेसी-244666एच), 11 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार जय प्रकाश (सं. 1089597डब्ल्यू अब जेसी-244671एन), 24 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार रविन्द्र सिंह (सं. 1089599एफ अब जेसी-244672डब्ल्यू), 24 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार सक्ति पाडा पंडित (सं. 1099775एफ अब जेसी-244673वाई), 27 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार अजी कुमार के (सं. 15461046वाई अब जेसी-244674एफ), 27 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार स्वपन पॉल (सं. 1099669एच अब जेसी-244675के), 29 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार शिट्पा सिरगनवी (सं. 1099654ए अब जेसी-244678एक्स), 30 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार राम अयोध्या कुमार (सं. 1099762के अब जेसी-244679ए), 27 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार गिरन्द सिंह बगहेल (सं. 15461913एक्स अब जेसी-244528एफ), 04 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार भुपेन्द्र सिंह (सं. 15461096के अब जेसी-244649एच), 03 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार देव राज (सं. 15461340वाई अब जेसी-244367के), 08 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार प्रमोद कुमार (सं. 1088403डब्ल्यू अब जेसी-244509डब्ल्यू), 07 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

दफादार नरेन्द्र सिंह (सं. 15463658पी अब जेसी-244595एम), 07 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार मदन पॉल (सं. 15464319एफ अब जेसी-244596पी), 07 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार सुखदेव सिंह (सं. 15462328के अब जेसी-244610डब्ल्यू), 18 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार राकेश कुमार (सं. 1091552के अब जेसी-244627के), 01 सितम्बर 2010

दफादार मालाडा सूर्य नारायणा (सं. 1099729एम अब जेसी-244631एम), 01 सितम्बर 2010

दफादार जसबीर सिंह (सं. 15462362के अब जेसी-244669डब्ल्यू),
22 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार पुष्पेन्द्र सिंह (सं. 15466718के अब जेसी-244676एम),
27 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार विपिन सिंह (सं. 15467831एल अब जेसी-244677पी),
27 सितम्बर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

दफादार महेन्द्र सिंह (सं. 15461396एल अब जेसी-244680पी),
01 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार कन्हैया लाल (सं. 15463536एल अब जेसी-244681एक्स),
06 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 28 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार जी नारायणा मुर्ती (सं. 1099471के अब जेसी-244682ए),
11 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

दफादार महेन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 1099635पी अब जेसी-244683एच),
11 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार दर्शन सिंह (सं. 15461642एल अब जेसी-244685एन),
11 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार रणजीत सिंह (सं. 1089716एफ अब जेसी-244687वाई),
08 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार ए अनबजागन (सं. 1099495एन अब जेसी-244688एफ),
14 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

दफादार पाटिल नारायण मुकुन्दा (सं. 1099537पी अब जेसी-
244689के), 15 अक्टूबर 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

जे राय चौधरी
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 184, दिनांक 17 मार्च 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल
पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में :--

रैंक, नाम, संख्या, शाखा व दिनांक

ग्रुप कैप्टन ए शर्मा (17656), वै.ई.(या), 03 नवम्बर 2008

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन एम ए खान (17634)
वै.ई.(या) से नीचे और ग्रुप कैप्टन एस सिन्हा (17626) वै.ई.(या) से
ऊपर प्रदर्शित होगा।

ग्रुप कैप्टन ए के स्वर्णकर (17629), वै.ई.(वै), 03 नवम्बर 2008

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन एस तिवारी (17639),
वै.ई.(वै) से नीचे और ग्रुप कैप्टन ए त्यागी (17654) वै.ई.(वै) से ऊपर
प्रदर्शित होगा।

ग्रुप कैप्टन एस नाथक (18486), वै.ई.(वै), 01 अक्टूबर 2009

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ग्रुप कैप्टन सी वी आर आर सुधीर
(18531) वै.ई.(वै) से नीचे और ग्रुप कैप्टन एस रामकृष्णन (18466)
वै.ई.(वै) से ऊपर प्रदर्शित होगा।

ग्रुप कैप्टन डी श्रीवास्तव (19042), वै.ई.(वै), 01 मई 2010

ग्रुप कैप्टन वी राजशेखर (19052), वै.ई.(वै), 01 मई 2010

ग्रुप कैप्टन यू चावला (19023), वै.ई.(वै), 01 मई 2010

ग्रुप कैप्टन आर एस कुमार (19037), वै.ई.(वै), 01 मई 2010

ग्रुप कैप्टन आर एल नारायणन (19038), वै.ई.(वै), 01 मई 2010

ग्रुप कैप्टन एस सरकार (19054), वै.ई.(वै), 01 मई 2010

ग्रुप कैप्टन बी फिलीप (19029), वै.ई.(वै), 01 मई 2010

ग्रुप कैप्टन जी आर अवस्थी (19125), वै.ई.(वै), 01 मई 2010

ग्रुप कैप्टन सी एन्ड्रेयुस (19413), वै.ई.(वै), 02 मई 2010

ग्रुप कैप्टन एन बी आर रायडू (19429), वै.ई.(वै), 01 अगस्त
2010

प्रशासनिक शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टन एस जेकब (16652) प्रशा., 03 नवम्बर 2008

(संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम ग्रुप कैप्टन एम मोहन्ता (17390) प्रशा. के नीचे एवं ग्रुप कैप्टन एम ए श्रीधर (17027) प्रशा. के ऊपर आएगा)

ग्रुप कैप्टन सी पी निगम (17054) प्रशा., 01 जुलाई 2009

(संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम ग्रुप कैप्टन आर एस मेंहदीरता (17394) प्रशा. के नीचे एवं ग्रुप कैप्टन एम के चितगुपी (सेवा-निवृत्त) (1795) प्रशा. के ऊपर आएगा)

ग्रुप कैप्टन ए पी सेल्वन (17885) प्रशा., 01 अप्रैल 2010

(संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम ग्रुप कैप्टन के अनन्तरामण (17882) प्रशा. के नीचे एवं ग्रुप कैप्टन ए साही (17887) प्रशा. के ऊपर आएगा)

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2 (बी)

सं. 185, दिनांक 17 मार्च 2011--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री जी सी शर्मा (जन्म तिथि : 10 जनवरी 1951) को उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 31 जनवरी, 2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री बी के गुप्ता (जन्म तिथि : 27 जनवरी 1951) को उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 31 जनवरी, 2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री मोहिन्दर प्रताप (जन्म तिथि : 15 जनवरी 1951) को उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 31 जनवरी, 2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद (जन्म तिथि : 05 जनवरी 1951) को उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 31 जनवरी, 2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस के रस्तोगी
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 186, दिनांक 18 मार्च 2011--दिनांक 04 फरवरी 2007 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप तथा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीओपी/05/50207/एम/01/132/डी (आर

एण्ड डी) दिनांक 24 जनवरी 2007 और डीओपी/05/50207/एम/01/181/डी (आर एण्ड डी) दिनांक 31 जनवरी 2009 द्वारा प्रदत्त 4 वर्ष के सेवा विस्तार की समाप्ति पर डॉ. प्रहलाद, विशिष्ट वैज्ञानिक और मुख्य नियंत्रक अनुसंधान तथा विकास (ए.ई. और एस.आई.), रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 28 फरवरी 2011 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं और दिनांक 01 मार्च 2011 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरित किये गये।

टी अब्दुर्रज्जाक

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

थल सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 187, दिनांक 18 मार्च 2011--राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र खण्ड-1, भाग-4 में 15 अगस्त 2009 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना शीर्षक 'नियमित सेना/स्थाई कमीशन' व उप शीर्षक ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद (रैंक) में सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(चिकित्सा सेना कोर)

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष)

के स्थान पर

के श्रीकार (एमआर-05400डब्ल्यू), 12 मार्च 2009 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 फरवरी 2009 से दी जाती है।

एस कौशल (एमआर-05395डब्ल्यू), 03 फरवरी 2009

आर के गुप्ता (एमआर-05398के), 03 फरवरी 2009

आर सी साहनी (एमआर-06204एच), 03 फरवरी 2009

पढ़ा जाए

के श्रीकार (एमआर-05400डब्ल्यू), 12 मार्च 2009 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जनवरी 2009 से दी जाती है।

एस कौशल (एमआर-05395डब्ल्यू), 03 फरवरी 2009 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 14 जनवरी 2009 से दी जाती है।

आर के गुप्ता (एमआर-05398के), 03 फरवरी 2009 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 14 जनवरी 2009 से दी जाती है।

आर सी साहनी (एमआर-06204एच), 03 फरवरी 2009 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 14 जनवरी 2009 से दी जाती है।

राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र खण्ड-1, भाग-4 में 26 सितम्बर 2009 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना शीर्षक 'नियमित सेना/स्थाई कमीशन' व उप शीर्षक ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद (रैंक) में सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(चिकित्सा सेना कोर)

ले. कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष)

के स्थान पर

एच एस बिंद्रा (एमआर-06472एम), 02 फरवरी 2009

पढ़ा जाए

एच एस बिंद्रा (एमआर-06472एम), 02 फरवरी 2009 से वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 14 जनवरी 2009 से दी जाती है।

यश पांडे

बिग्रे

उप महानिदेशक स से चि से नि (मा. सं.)

सेना शाखा

कप्तान से मेजर

शुद्धि-पत्र

सं. 188, दिनांक 18 मार्च 2011--राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र सं. 611/96 में शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "कप्तान से मेजर" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

के बदले : (आईसी-44887) आर गरवाल, इंजीनियर्स, 13 जून 1996

पढ़ा जाए : (आईसी-44887) आर अग्रवाल, इंजीनियर्स, 13 जून 1996

पी के शास्त्री

मेजर

ए एम एस-8 बी

सं. 189, दिनांक 21 मार्च 2011--रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री रवि शंकर बिस्सा (जन्म तिथि : 28 मार्च 1956) का दिनांक 02 फरवरी 2011 को देहांत हो गया है।

के मुरली

अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th May 2011

No. 174, dated 14th March 2011—Consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the Year 2010, the President is pleased to appoint Shri Jai Raj, CSS, Under Secretary, Ministry of Defence as Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis, in the same Ministry wef 09 Dec 2010 (FN), in terms of DoP&T Order No. 4/2/2010-CS-I (D) dated 09 Dec 2010.

Consequent upon inclusion of her name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the Year 2010 by the Department of Personnel and Training vide their Office Order No. 4/2/2010-CS-I(D) dated the 09 Dec 2010, the President is pleased to appoint Smt Shashi Prabha Munjal, CSS, Under Secretary as Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Defence on regular basis wef 13 Dec 2010(AN)

Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the Year 2010 by the Department of Personnel and Training vide their Office Order No. 4/2/2010-CS-I(D) dated the 09 Dec 2010, the President is pleased to appoint Dr Harmeet Singh, CSS, Under Secretary as Deputy Secretary of CSS in the Ministry of Defence on regular basis wef 21 Dec 2010(AN)

The President is pleased to appoint Shri R V Jose, a regular Principal Private Secretary borne on the CSSS Cadre as Senior Principal Private Secretary in the Ministry of Defence in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- on adhoc basis with effect from 30 Nov 2010 till 31 Mar 2011, or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier

The President is pleased to extend the adhoc appointment of the following regular Stenographers Grade 'C' borne on the CSSS cadre, presently officiating as Private Secretary on adhoc basis in the Ministry of Defence in the Revised Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + GP Rs. 4,800/- for a further period mentioned against each or till regular Private Secretaries become available or until further orders, Whichever is earlier:—

Name, from & to

Ashok Kumar, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Smt Shakti Bala Bakshi, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Mohd Gohar Hussain, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Rajinder Prasad, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Harbans Lal, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Anil Kumar, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Chander Kumar, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Rajbir Singh Dabas, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Ashok Kumar, 01 Jan 2011, 31 March 2011

Smt Urmil Gaba, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Sanjay Mahani, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

V D Sharma, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Jai Inder Rai, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Pramod Sharma, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Mahender Kumar, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

U K S Puri, 01 Jan 2011, 30 Apr 2011

Ms Pratibha Passi, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

Smt Latha Karunanethy, 01 Jan 2011, 30 Jun 2011

2. The adhoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS (Private Secretary)

3. The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

Consequent upon inclusion of his name in the Select List (Seniority Quota) of Stenographers' Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers' Service for the year 2008, the President is pleased to appoint Shri Davinder Kumar, a regular Stenographers Grade 'C' borne on the cadre of Ministry of Mines and working as adhoc PS in this Ministry to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence with effect from 20 Dec 2010.

Consequent upon inclusion of her name in the Select List (Seniority Quota) of Stenographers' Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS for the year 2008, the President is pleased to appoint Smt. Rita Mehta, a Stenographer Grade 'C' borne on the cadre of Ministry of Road Transport and Highways and officiating as PS in this Ministry on adhoc basis, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (PS) of CSSS in the Ministry of Defence with effect from 06 Jan 2011.

S K RASTOGI
Under Secy

FINANCE DIVISION

No. 175, dated 14th March 2011—The President is pleased to appoint Shri T K Gupta, CSS as Deputy Financial Adviser in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 4th Feb 2011, until further orders.

The President is pleased to appoint Shri Kamal Kumar Kohli, CSS as Deputy Financial Adviser in the Ministry of Defence (Finance) with effect from the forenoon of 4th Jan 2011, until further orders.

T H FRANKLIN
Dy Financial Adviser (Estt/MO)

ARMY BRANCH

No. 176, dated 14th March 2011—The President is pleased to make the following appointments:—

(REGULAR ARMY)

(SPECIAL COMMISSION)

The following 16 GCs are granted Special Commission in the Arm/Service as shown against their names in the rank of Lt under AI 5/97 with effect from 12 Jun 10 as per inter-seniority given in the final letter of even number dated 30 Jun 2010.

IMA No., Army No., Parent Arm/Service, Name, SCO No, Arm Service Allotted

S/752, 9104943Y, Inf, Tariq Ahmed Mangral, SC-00613A, AOC

S/722, JC-308569P, Engrs, Peter John, SC-00614H, Engrs

S/749, 3994991N, Inf, Pawan Singh, SC-00615L, Inf

S/741, 5454261K, Inf, Prashant Thapa, SC-00616N, ASC

S/751, 5249234M, Inf, Kailash Malla, SC-00617W, Inf

S/747, 9513213H, AEC, Manvirendra Singh Gusain, SC-00618Y, Arty

S/745, 5454048K, Inf, Anup Thapa, SC-00619F, Inf

S/748, 9512855L, AEC, Paritosh Kumar Sarkar, SC-00620W, Int

S/740, 5047560M, Inf, Gurung Sagar, SC-00621Y, Inf

S/739, 4369807L, Inf, Ramesh Singh, SC-00622F, Mech

S/746, 6486095L, ASC, Ram Sawroop, SC-00623K, AC

S/750, 15773796H, AAD, Shyam Kumar Yadav, SC-00624M, AAD

S/743, 5453751L, Inf, Amit Thapa, SC-00625P, Inf

S/742, 2496814N Inf, Shamsher Singh, SC-00626X, Engrs

S/744, 14810596W, ASC, Sajet Joseph, SC-00627A, Arty

S/738, JC-489134Y, Inf, Anil Kumar Rohil, SC-00628H, Arty

SHORT SERVICE COMMISSION (On Probation)

The undermentioned GCs of 17 University Entry Scheme Course (UES) are granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the

dates shown against their names under the provisions of AI 2/93, as amended :—

IMA No., Name (SS No.), Arm/Service, Date of SSC (on probation)

U/901 Gaurav Jain (43574A), Sigs, 16 Jul 2008

U/914 Suchit Pandey (43587X), EME, 01 Jun 2007

U/924 Ankur Tyagi (43597F), Sigs, 16 Jul 2008

The Arm/Service allotted to the GCs are valid for the duration of their training only.

RAHUL SHARMA
Lt Col
AMS 8B

No. 177, dated 15th March 2011—Consequent on being approved for appointment as Officer-on-Special Duty (OSD) to the Minister of Shipping (Shri G K Vasan) as Deputy Secretary level on 'lateral shift' basis, the services of Shri Shunchonngam Jatak Chiru, IAS (TN: 1999), Deputy Secretary, Ministry of Defence is placed at the disposal of the Ministry of Shipping w.e.f. 09.11.2010 (FN).

K MURALI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 178, dated 15th March 2011—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Subs Lt Col (Time Scale)

Maj N Venkatesh (IC-41395F), AC, 18 Jun 2003

T K DAS
Dy Dir
MS 8A

No. 179, dated 15th March 2011—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Sqn Ldr to be Wg Cdr

Ujjawal Singh Tanwar (MR-08196N) (AF-26070R), AMC, 22 Jan 2010

Flt Lt to Sqn Ldr

Ramanjit Singh Akal (MR-08745H) (AF-28377A), AMC, 17 May 2009

Vivek Ranjan Singh (MR-09052X) (MS-15087K) (AF-28384R), AMC, 17 Sep 2010

Capt to be Maj

John Magesh Kumar J (MS-15382M) (MR-08814N), AMC,
22 Sep 2010

Karande Pravin Narayan (MS-15376Y) (MR-08900Y),
AMC, 22 Sep 2010

Hrishikesh Magdum (MS-15352P) (MR-08919X), AMC,
22 Sep 2010

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 180, dated 16th March 2011—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Capt

Name (SS No.), Arm, Date of Seniority, Course, Revised
Date of Seniority for Promotion, Date of grant of Subs rank
of Capt

Satendra Singh Negi (42886), Sigs, 22 Mar 2008, SSC-85
(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

Bikash Singh (42887), Engrs, 22 Mar 2008, SSC-85 (NT),
22 Oct 2008, 22 Oct 2010

Ravi Pratap Singh (42950), Engrs, 22 Mar 2008, SSC-85
(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

Rajdeep Singh (42982), Sigs, 22 Mar 2008, SSC-85 (NT),
22 Oct 2008, 22 Oct 2010

Ankush Agnihotri (42989), Sigs, 22 Mar 2008, SSC-85
(NT), 22 Oct 2008, 22 Oct 2010

SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

Lt to be Capt

Smriti Jha (43785), Sigs, 22 Sep 2007, SSCW-02 (T), 22 Oct
2007, 22 Oct 2009

SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Lt to be Capt

Name (WS No.), Arm, Seniority, Course, Revised Date of
seniority, Date of promotion of Substantive Capt

Ramandeep Kaur (01392), AOC, 22 Sep 2007, WSES(O)-
30 (NT), 22 Sep 2008, 22 Sep 2010

Sakshi Patel (01408), AOC, 22 Sep 2007, WSES(O)-30
(NT), 22 Sep 2008, 22 Sep 2010

Gauri Mishra (01426), AOC, 22 Sep 2007, WSES(O)-30
(NT), 22 Sep 2008, 22 Sep 2010

RAHUL SHARMA
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 181, dated 16th March 2011—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

RECORDS THE MIR

To be Sub Maj

Sub (Gnrpt) Benedict Seraphim (No. JC-419564L),
01 Jan 2011

To be Sub

Nb Sub (Gnrpt) Sahdev Singh (JC-420927W), 13 Jan 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Sub wef 01 Nov 2010
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Ramesh Chandra Bhatt (JC-420465P),
01 Dec 2010

Nb Sub (Ow Afv) Goverdhan Singh Manju (JC- 420533X),
01 Jan 2011

Nb Sub {Op (Radio)} Narendra Singh (JC-420547X),
01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Shiv Karan Singh (JC-420617L),
01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Lal Singh (JC-420625K), 01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Bahadur Singh (JC-420678H), 01 Jan
2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Rajendra Singh Kanwal (JC-420758A),
10 Jan 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2011
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Prem Kazi Gurung (JC-420853M),
01 Jan 2011

Nb Sub (Gunner) Bharat Prasad (JC-420914Y), 10 Jan
2011*

*(Granted seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2011
without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr Afv) Suresh Kumar Verma (JC-420928Y),
01 Jan 2011

Nb Sub (Gnrpt) Manbir Singh (JC-420962Y), 01 Jan 2011

Nb Sub (Gnrpt) Ashok Kumar Sharma (JC-420964K),
01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Udayvir Singh (JC-420985A), 01 Jan
2011

Nb Sub (Dvr Afv) Mummina Appa Rao (JC-420970X), 01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Afv) Hare Ram Mishra (JC-420972H), 01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Afv) Baljit Singh (JC-420974N), 01 Jan 2011

Nb Sub (Gnrpt) Sunil Gogoi (JC-421030Y), 01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Afv) Sarbjeet Singh (JC-421051P), 01 Jan 2011

Nb Sub (Gnrpt) Jagdanand Mishra (JC-421111Y), 01 Jan 2011

Nb Sub (Ow Afv) Subhash Kumar B (JC-421165A), 01 Jan 2011

Nb Sub (Ow Afv) Mulayam Singh (JC-421178X), 08 Jan 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr Afv) Jagbir Singh (JC-421221N), 01 Jan 2011

Nb Sub (Gnrpt) Sheo Kumar Singh (JC-421222W), 01 Jan 2011

Nb Sub (Gnrpt) Om Parkash (JC-421223Y), 01 Jan 2011

Nb Sub (Gnrpt) Narender Nagar (JC-421302N), 01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Afv) Kamlesh Kumar Singh (JC-421259X), 01 Jan 2011

Nb Sub (Gnrpt) Surjit Singh (JC-420422A), 04 Oct 2010*

*(Granted seniority in the Rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr Afv) Satyavir (JC-420968A), 01 Nov 2010

Nb Sub (Dvr Afv) Jai Pal (JC-421081M), 01 Dec 2010

Nb Sub (Gnrpt) Dnyaneshwar Patil (JC-420554N), 24 Jan 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr Afv) Kirat Singh (JC-420571N), 01 Jan 2011

Nb Sub (Ow Afv) Phool Singh (JC-420601A), 17 Jan 2011*

*(Granted seniority in the Rank of Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Mahendra Nath Mohanta (JC-421229A), 01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Afv) S Arockia Samy (JC-421258P), 01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Shyam Pal Singh (JC-421261P), 01 Jan 2011

Nb Sub (Gunner) Katakam Ravi (JC-421265L), 01 Jan 2011

Nb Sub (Gnrpt) K Kumaran Alias Velu (JC-421264H), 01 Jan 2011

Nb Sub (Gnrpt) Lalan Kumar (JC-421303W), 01 Jan 2011

Nb Sub (Dvr Ft Veh) Prem Bahadur (JC-420814N), 01 Feb 2011

Nb Sub (Dvr Afv) Angad Singh Yadav (JC-421140N), 01 Feb 2011

Nb Sub Clk (SD) Triveni Upadhyay (JC-420791X), 01 Feb 2011

To be Nb Sub

Hav Dalbir Singh (No. 14915718N now JC-421798N), 26 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Shaikh Innus Ibrahim (No. 14916523P now JC-421799W), 26 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Radhey Shyam (No. 14916575L now JC-421800A), 28 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Pittam V Subba Reddy (No. 14917396X now JC-421801H), 25 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Supender Singh (No. 2987426X now JC-421802L), 17 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Raj Kumar (No. 14915439H now JC-421803N), 14 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Kumar (No. 14917022F now JC-421804W), 24 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Sheo Karan (No. 14916592L now JC-421805Y), 01 Jan 2011

Hav Sayed Anis Hakimsaheb (No. 14918826H now JC-421806F), 07 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Prashad (No. 14917064N now JC-421807K), 06 Jan 2011*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Aiyappa AB (No. 14917831F now JC-421808M),
01 Jan 2011

Hav Prem Kumar VS (No. 14918046X now JC-421809P),
01 Jan 2011

Hav Krishan Kumar (No. 14917949H now JC-421810K),
01 Jan 2011

Hav Ram Phal (No. 14918254M now JC-421811M), 01 Jan
2011

Hav K Reju Kumar (No. 14919189K now JC-421812P),
01 Jan 2011

Hav Mahendra Singha (No. 14919097X now JC-421813X),
01 Jan 2011

Hav Lalit Singh (No. 14919495Y now JC-421814A), 01 Jan
2011

Hav Jamil Ahmed (No. 14919531Y now JC-421815H),
01 Jan 2011

Hav Shewale Babasaheb Haribhau (No. 14919532F now
JC-421816L), 15 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Narendr Kumar Dubey (No. 14914888L now JC-
421772Y), 09 Nov 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010
without effect on pay and allowances)

Hav Rajbir Singh (No. 14914893W now JC-421773F),
17 Nov 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Anand Singh (No. 14915088Y now JC-421774K),
17 Nov 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Veerendra Singh Gurjar (No. 14915200A now JC-
421775M), 03 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Hans Raj (No. 14915853F now JC-421776P), 30 Dec
2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Khim Singh Selakoti (No. 14915295L now JC-
421777X), 26 Dec 2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Hira Lal (No. 14918505L now JC-421778A), 20 Dec
2010*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Uttam Chand (No. 14917016N now JC-421779H),
24 Dec 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Dec
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dharm Veer Singh (No. 2987679M now JC-421780X),
14 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Latful Haque (No. 14915892A now JC-421781A),
06 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Sudhir (No. 14916253L now JC-421782H), 01 Jan
2011

Hav Maharam Singh (No. 14916111N now JC-421783L),
01 Jan 2011

Hav Roy Mathew (No. 14916181M now JC-421784N),
01 Jan 2011

Hav Shamsheer Singh (No. 14916386F now JC-421785W),
01 Jan 2011

Hav Karangia Parbat Bhaya (No. 14915988H now JC-
421786Y), 01 Jan 2011

Hav Kalam Singh (No. 14917269H now JC-421787F),
10 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Babu Ram Kshatri (No. 14916749A now JC-421788K),
01 Jan 2011

Hav Ram Milan Verma (No. 14916581Y now JC-421789M),
01 Jan 2011

Hav Arun Kumar (No. 14915881N now JC-421790F),
01 Jan 2011

Hav A Ibochow Singha (No. 14915945N now JC-421791K),
01 Jan 2011

Hav Joginder (No. 14919535P now JC-421792M), 01 Jan
2011

Hav Laxmaiah G (No. 14919267W now JC-421793P),
01 Jan 2011

Hav Vinod Kumar (No. 14917525M now JC-421794X),
01 Jan 2011

Hav Rakesh Kumar (No. 14918431F now JC-421795A),
05 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan
2011 without effect on pay and allowances)

Hav Uttam Singh (No. 14917135K now JC-421796H),
01 Jan 2011

Hav Birbal (No. 14919091W now JC-421797L), 01 Jan 2011

Hav Clk (SD) Rajesh Kumar Yadav (No. 14917931M now JC-421817N), 03 Jan 2011*

*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Clk (SD) Kamlesh Chandra (No. 14916791Y now JC-421818W), 01 Feb 2011

Hav Clk (SD) Kharade Anandrao Tukaram (No. 14916801X now JC-421819Y), 01 Feb 2011

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 182, dated 16th March 2011—The President is pleased to make the following Appointment/Promotions :—

To be Sub Tech Small Arms

Nb Sub Padma Lochana Mahanta (JC-760873F), 01 Nov 2010

To be Sub Master Tech Rdr

Nb Sub Babu Lal (JC-759681X), 03 Nov 2010/01 Nov 2010*

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-759677P), 01 Nov 2010

Nb Sub Man Pal singh (JC-759680P), 01 Nov 2010

Nb Sub Chandni Prasad Tiwari (JC-759679A), 01 Nov 2010

To be Sub Master Tech Gun

Nb Sub Ram Kewal Yadav (JC-759660P), 01 Nov 2010

Nb Sub Surinder Kumar (JC-759667L), 01 Nov 2010

Nb Sub Ramesh Chand Yadav (JC-759673Y), 02 Nov 2010/01 Nov 2010*

Nb Sub Uday Bhan (JC-759674F), 01 Nov 2010

Nb Sub Narayan Chandra Sarkar (JC-758672W), 01 Nov 2010

Nb Sub S Alimuddin (JC-759670L), 01 Nov 2010

To be Sub Master Tech GCE

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-759600M), 01 Nov 2010

To be Sub Master Tech A Veh

Nb Sub Gurjant Singh (JC-759549X), 01 Nov 2010

To be Sub Master Tech Elect

Nb Sub Birender Singh (JC-759710F), 01 Nov 2010

Nb Sub Sanjay Singh (JC-759559F), 02 Nov 2010/01 Nov 2010*

To be Sub Auto Tech Elect A Veh

Nb Sub Manaram Pooniya (JC-763253W), 01 Nov 2010

To be Sub Tech (Comm)

Nb Sub Balwan Singh (JC-763273K), 01 Nov 2010

To be Sub Auto Tech B Veh

Nb Sub Chaturghan Mahto (JC-763294A), 01 Nov 2010/22 Jun 2010*

Nb Sub Nanhe Lal (JC-763822Y), 01 Nov 2010

To be Sub Master Tech Avn (AF)

Nb Sub Susanta Neogi (JC-760960P), 18 Nov 2010/01 Nov 2010*

Nb Sub Chandra Prakash P (JC-760959A), 15 Nov 2010/01 Nov 2010*

Nb Sub Subhas Chand (JC-760958X), 16 Nov 2010/01 Nov 2010*

To be Sub Tech AVF (AE)

Nb Sub Lal Mohar Rai (JC-760952W), 16 Nov 2010/01 Nov 2010*

Nb Sub Pramod Kumar Singh (JC-760961X), 16 Nov 2010/01 Nov 2010*

To be Sub Avn Tech Elect

Nb Sub Hare Ram Singh Yadav (JC-760953Y), 03 Nov 2010/01 Nov 2010*

To be Sub AVF (AVN)

Nb Sub Rajendra Kumar (JC-760971F), 22 Nov 2010/01 Nov 2010*

To be Sub AVF (AF)

Nb Sub Mitra Bhanu Mohakud (JC-760956M), 16 Nov 2010/01 Nov 2010*

*Gtd ante dated seniority

To be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Hav Sushil Kumar Sharma (No. 14583623Y now JC-765245W), 01 Oct 2010

To be Nb Sub Dvr

Hav Ghan Shayam Panday (No. 14586306H now JC-765280Y), 01 Oct 2010

To be Nb Sub Auto Tech B Veh

Hav Surender Singh (No. 14573468P now JC-765297M), 01 Oct 2010

Hav Raj Kumar (No. 14574652M now JC-765300F), 01 Oct 2010

Hav Som Prakash Tiwari (No. 14574704X now JC-765301K), 01 Oct 2010

To be Nb Sub SKT

Hav Hari Om (No. 14605116N now JC-765304X), 04 Oct 2010/01 Oct 2010*

Hav Jitender Singh Sikarwar (No. 14613855P now JC-765305A), 01 Oct 2010

Hav Umed Singh (No. 14613863N now JC-765306H), 01 Oct 2010

Hav Gajendra Singh Rana (No. 14613882Y now JC-765308N), 01 Oct 2010

To be Nb Sub Master Tech Comn

Hav Kendre Maroti Ganapati (No. 14624592F now JC-765331F), 01 Sep 2010

Hav Md Kausar Ali (No. 14618546W now JC-765365P), 01 Oct 2010

To be Nb Sub Master Tech Networking

Hav Dinesh Babu T (No. 14617752N now JC-765356N), 01 Oct 2010

Hav Harbhajan (No. 14592582F now JC-765357W), 01 Oct 2010

To be Nb Sub Master Tech (Elect)

Hav G Leela Shankar (No. 14618978L now JC-765358Y), 04 Oct 2010/01 Oct 2010*

Hav Ram Prasad Roy (No. 14619055M now JC-765359F), 01 Oct 2010

To be Nb Sub Master Tech gun

Hav VR Madhivanan (No. 14622375M now JC-765360W), 01 Oct 2010

Hav Ashutosh Kumar (No. 14623324L now JC-765362F), 01 Oct 2010

To be Nb Sub Master Tech (Opto Elect)

Hav Jitendra Kumar Singh (No. 14618607H now JC-765363K), 01 Oct 2010

To be Nb Sub Master Tech Rdr

Hav Manoj Kumar (No. 14628532K now JC-765368H), 01 Oct 2010

To be Nb Sub Master Tech B Veh

Hav Gujar Anil Harisingh (No. 14622604M now JC-765369L), 01 Oct 2010

Hav Shyamal Chakrapany (No. 14619066Y now JC-765371H), 01 Oct 2010/01 Aug 2010*

Hav Dilep Kumar Bhardwaj (No. 14619618F now JC-765375Y), 01 Oct 2010

Hav Jitender Singh Rawat (No. 14619592X now JC-765376F), 01 Oct 2010

Hav Dilawar Singh Mallik (No. 14619679Y now JC-765377K), 01 Oct 2010

Hav Venkatesha K (No. 14620092M now JC-765379P), 01 Oct 2010

Hav Paragouda Patil (No. 14619524K now JC-765382P), 01 Oct 2010

Hav G Nagarajulu (No. 14619812W now JC-765384A), 01 Oct 2010

*Gtd ante dated seniority

Hav to be Nb Sub Tech (Comn)

S Rasul (No. 14512776Y now JC-765717F), 17 Jun 1995

Nb Sub to be Sub Tech (Comn)

S Rasul (JC-765717F), 01 Jan 1998

To be Nb Sub Master Tech Networking

M Ponu Durai (No. 14615172A now JC-765318X), 29 Sep 2010/01 Mar 2010*

Shish Pal (No. 14617276A now JC-765319A), 13 Sep 2010/01 Sep 2010*

Davinder Singh (No. 14617531F now JC-765320P), 09 Sep 2010/01 Sep 2010*

To be Nb Sub Master Tech (Elect)

Sahukari Dhasaradha Rao (No. 14605131H now JC-765322A), 10 Sep 2010/01 Sep 2010*

Ram Niwas Naheliya (No. 14609459F now JC-765323H), 10 Sep 2010/01 Sep 2010*

Jai Singh (No. 14618684X now JC-765324L), 09 Sep 2010/01 Sep 2010*

Vinod Kumar R (No. 14616244L now JC-765327Y), 17 Sep 2010/01 Sep 2010*

To be Nb Sub Master Tech (Opto Elect)

Vinod Kumar Mishra (No. 14618113Y now JC-765328F), 09 Sep 2010/01 Sep 2010*

Rajiv Kumar (No. 14618603M now JC-765329K), 09 Sep 2010/01 Sep 2010*

Arabinda Jena (No. 14618623A now JC-765330Y), 08 Sep 2010/01 Sep 2010*

To be Nb Sub Master Tech (Comm)

Manjeet Singh (No. 14625089W now JC-765332X), 10 Sep 2010/01 Sep 2010*

Dhirender Singh (No. 14626293F now JC-765333M), 13 Sep 2010/01 Sep 2010*

Md Istayak Ali (No. 14625747X now JC-765334P), 20 Sep 2010/01 Sep 2010*

Jaipal Singh (No. 14625860M now JC-765335X),
09 Sep 2010/01 Sep 2010*

Kishor Mandal (No. 14625778X now JC-765336A),
09 Sep 2010/01 Sep 2010*

Shiv Dutt (No. 14625978N now JC-765337H),
13 Sep 2010/01 Sep 2010*

Yadu Nath (No. 14623074P now JC-765364M),
01 Oct 2010/01 Dec 2009*

To be Nb Sub Master Tech RDR

Dilip Kumar Mandal (No. 14628460L now JC-765338L),
10 Sep 2010/01 Sep 2010*

To be Nb Sub Master Tech A Veh

Sube Singh (No. 14618452Y now JC-765339N),
09 Sep 2010/01 Sep 2010*

Sita Ram Aheer (No. 14618542A now JC-765341I),
01 Sep 2010

Prabish Kumar E (No. 14618569X now JC-765342N),
30 Sep 2010/01 Sep 2010*

N Ravi Chandran (No. 14618855Y now JC-765343W),
09 Sep 2010/01 Sep 2010*

Suresh Chandra (No. 14619023K now JC-765344Y),
15 Sep 2010/01 Sep 2010*

Raju Samadder (No. 14619043X now JC-765345F),
06 Sep 2010/01 Sep 2010*

Birajdar Chandra Shekhar Yajaman (No. 14619754X now
JC-765346K), 16 Sep 2010/01 Sep 2010*

Anup Kumar Rai (No. 14620044M now JC-765347M),
09 Sep 2010/01 Sep 2010*

Vikram Singh (No. 14620443W now JC-765348P),
10 Sep 2010/01 Sep 2010*

Thumala Babu (No. 14620466X now JC-765349X),
09 Sep 2010/01 Sep 2010*

Raj Bahadur Singh (No. 14620676X now JC-765350M),
13 Sep 2010/01 Sep 2010*

To be Nb Sub Master Tech B Veh

Meghapara Shirish Kumar (No. 14619565N now JC-
765351P), 09 Sep 2010/01 Sep 2010*

Bhat Pradeep Ramchandra (No. 14619745W now JC-
765352X), 16 Sep 2010/01 Sep 2010*

To be Nb Sub Master Tech AVF (AEN)

JP Jerald Manikodi (No. 14636408X now JC-765354H),
13 Sep 2010/01 Sep 2010*

To be Nb Sub Master Tech AVF (AF)

Karamjit Singh (No. 14636045Y now JC-765355L),
14 Sep 2010/01 Sep 2010*

To be Nb Sub Clk (SD)

Babu ED (No. 14589987F now JC-765392Y), 01 Oct 2010

* Gtd ante dated seniority

To be Sub Welder

Kossireddi WSVP Babu (JC-760936Y), 01 Sep 2010

To be Sub Master Tech B Veh

Sri Om Prakash Singh (JC-759534P), 01 Oct 2010

Om Prakash Joshi (JC-759598A), 01 Nov 2010

Girdhari Lal Gurjar (JC-759548P), 01 Nov 2010

Tulasidas Mahanta (JC-759550M), 01 Nov 2010

To be Sub SKT

Ishwar Singh (JC-762877W), 01 Oct 2010

Ram Singh Negi (JC-763131M), 01 Nov 2010

To be Sub Master Tech Comm

Abdul Sabur Barbhuiya (JC-759556N), 04 Oct 2010/01 Oct
2010*

Raj Bahadur (JC-761725H), 20 Oct 2010/22 Jun 2010*

To be Sub Auto Tech A Veh

Mohammad Ahasan (JC-762928Y), 14 Oct 2010/22 Jun
2010*

Parmod Singh Bist (JC-762214L), 19 Oct 2010/22 Jun 2010*

Sushanta Kumar Das (JC-763491H), 01 Nov 2010/
01 Aug 2010*

To be Sub Master Tech AVN (Elect)

Suresh Kumar Rai (JC-761130L), 28 Oct 2010/01 Oct 2010*

To be Sub ARMT Tech (FD)

Vishnu Dutt (JC-763299Y), 01 Nov 2010/22 Jun 2010*

To be Sub Auto Tech B Veh

Rama Shanker Pandey (JC-763316N), 01 Nov 2010/01 Jul
2010*

Anil Kumar (JC-763820N), 16 Oct 2010/01 Sep 2010*

Ghan Shyam Lal Murari (JC-763716A), 01 Nov 2010/
01 Aug 2010*

To be Sub C & J

Radhey Shyam Singh (JC-762924H), 01 Nov 2010/
01 Jul 2010*

To be Sub CLK (SD)

Bharat Ch Bharali (JC-760546W), 01 Nov 2010

Shiv Nath Thakur (JC-760544L), 01 Nov 2010

Shubhash Chandra Jha (JC-760590A), 01 Nov 2010

Patil Sadashiv Shripati (JC-760588H), 01 Nov 2010

Manjeet Singh Bajwa (JC-760591H), 01 Nov 2010

To be Master Tech Gun

Ashis Kumar Thakur (JC-759661K), 01 Nov 2010

Krishna Chandra Dalei (JC-759669W), 01 Nov 2010

Kishore Das (JC-759671N), 01 Nov 2010

Kajotan Nayak (JC-759665A), 01 Nov 2010

To be Sub Master Tech RDR

Ravikant Yadav (JC-759678X), 01 Nov 2010

Dinesh Kumar (JC-759676M), 01 Nov 2010

To be Sub DW

Ganga Bahadur Thapa (JC-762482P), 01 Nov 2010

Ugir Singh (JC-762483X), 01 Nov 2010

To be Sub Master Tech (Elect)

Umesh Kumar Singh Yadav (JC-759560W), 01 Nov 2010

To be Sub Machinist

Vinayak Dalavi (JC-761133Y), 01 Nov 2010

To be Sub Tech AVF (AEN)

Ompal (JC-762825A), 23 Sep 2010/01 Sep 2010*

* Gtd ante dated seniority

N K KASHMIRA
Under Secy

ARMY BRANCH*

No. 183, dated 17th March 2011—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMoured CORPS

To be Subs Ris

Nb Ris Ankush Bhanudas Tat (JC-242535Y), 01 Feb 2010

Nb Ris Vijay Pal Singh Chauhan (JC-242976P), 23 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 12 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Purkha Ram (JC-243269X), 13 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 12 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sajjan Singh (JC-243270M), 13 Mar 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 12 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dhan Singh Yadav (JC-242276F), 01 Apr 2010

Nb Ris Chand Singh (JC-241094F), 01 Apr 2010

Nb Ris Prahalad Kumar (JC-241743F), 01 Apr 2010

Nb Ris Janardanan T (JC-242255L), 01 Apr 2010

Nb Ris Prakash B (JC-242341W), 01 Apr 2010

Nb Ris Parash Ram (JC-242319L), 15 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Satnam Singh (JC-242805H), 06 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 11 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Laxman Singh (JC-242806L), 06 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 11 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Randhir Singh (JC-242914P), 14 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 11 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rajinder Singh (JC-242462X), 28 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jangali Sah (JC-242784X), 12 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Balraj Singh (JC-242879X), 13 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Atiraj Singh (JC-242989M), 01 Apr 2010

Nb Ris Bed Ram (JC-242946X), 23 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 17 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jagjeet Singh (JC-241520K), 26 Apr 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Amar Chand (JC-242257W), 01 May 2010

Nb Ris Ram Phal (JC-242260W), 02 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ambekar Ganesh Gajaram (JC-242972Y), 19 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ram Kumar (JC-243041F), 13 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Amarjit Singh (JC-242699P), 01 Jan 2010

Nb Ris Jaswant Singh (JC-242553F), 13 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Roop Singh (JC-243242A), 13 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Chandan Singh (JC-242653M), 07 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Amarjit Singh (JC-242790X), 01 Apr 2010

Nb Ris Manjit Singh (JC-243037Y), 01 Apr 2010

Nb Ris Bhaba Rajan Das (JC-243358W), 13 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sandokhu Ram (JC-242830F), 10 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mangat Ram (JC-242845K), 10 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rama Chandran Nair PN (16 CAV) (JC-242811W), 11 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Balbir Singh (JC-242928P), 10 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Raghuveer Singh (JC-242933A), 01 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jadhav Appaso Babaso (JC-243005W), 11 Apr 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Shri Krishan (JC-243197Y), 10 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Chandu Lal Sharma (JC-243262N), 06 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Malkhan Singh (JC-242507M), 16 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Partap Singh (JC-242761W), 01 May 2010

Nb Ris Harnam Singh (JC-242758W), 03 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mohan Singh (JC-242627L), 01 May 2010*

Nb Ris Karnail Singh (JC-242826Y), 01 May 2010*

Nb Ris Raj Kumar Singh (JC-242788N), 09 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Devendra Bahadur Singh (JC-243274H), 24 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ram Swarup (JC-243462K), 06 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Karnail Singh (JC-242365A), 21 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mukesh Singh (JC-243339L), 12 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dharmana Suryanarayana (JC-242873W), 05 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Yash Pal Singh (JC-242863M), 30 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Waghmare Shivaji Kondiba (JC-243141M), 24 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Indra Bhan Singh (JC-242166M), 12 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 16 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Raj Kumar Singh (JC-242791N), 11 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 25 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bachchu Singh (JC-243051L), 10 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sheo Kumar Pandey (JC-241840Y), 16 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sethi Ram (JC-243684Y), 14 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Braj Raj Singh (JC-242869N), 09 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jagvir Singh (JC-242614N), 01 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Amarpal Singh (JC-242655X), 16 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Hakam Singh (JC-242649K), 18 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sandeep Chauhan (JC-242451L), 07 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ram Rattan (JC-242577L), 01 Jun 2010

Nb Ris Hira Singh (JC-242841N), 19 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris K Ramesh (JC-242562H), 10 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Janak Raj (JC-242710H), 02 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jagroop Singh (JC-243039K), 15 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Devender Singh Rathore (JC-242273N), 12 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Tarsem Singh (JC-242274W), 07 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ami Lal Jat (JC-242095W), 09 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Hajari Lal (JC-242318H), 09 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Krishna Kumar Singh (JC-243042K), 06 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Balkar Singh (JC-243085Y), 06 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Harjinder Singh (JC-243561M), 10 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Pushpinder Singh (JC-242817X), 10 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Baldhir Singh (JC-243210X), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Suresh Singh (JC-243360N), 12 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gurnam Singh (JC-243097N), 01 Apr 2010

Nb Ris Kamal Kishore (JC-242902A), 15 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dhanna Ram (JC-243540W), 09 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Muhamad Anwar Ali (JC-242890W), 03 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 19 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ramesh Kumar (JC-242889F), 05 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 19 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ram Kishore (JC-243059X), 10 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Subhash Chand (JC-243402P), 16 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sadananda Swain (JC-243403X), 16 Jun 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Surjit Singh (JC-242862K), 01 Jul 2010

Nb Ris Richhpal Rai (JC-243118Y), 10 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kuldip Singh (JC-241973P), 01 Jul 2010

Nb Ris Kanwaljit Singh (JC-242539P), 15 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Narinder Singh (JC-242541M), 06 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jai Karan (JC-243159H), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Shiv Dutt (JC-242909K), 01 Aug 2010

Nb Ris Ranjeet Singh (JC-242438F), 17 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Feroz Khan (JC-242447H), 17 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Lillu Khan (JC-242641X), 17 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jagphool Singh (JC-241855F), 02 Aug 2010

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rattan Singh (JC-241588L), 28 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Bir Singh (JC-241991X), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Piara Singh (JC-242302X), 14 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Baldev Singh (JC-242359M), 14 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gurnam Singh (JC-242448L), 15 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Arjun Singh (JC-242842W), 17 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 19 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Pardeep Kumar (JC-242953N), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 27 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sahab Singh (JC-241730K), 14 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Chuni Lal (JC-243909W), 15 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sishupal Singh (JC-242039X), 21 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Babu Singh (JC-242954W), 17 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Chuni Lal (JC-241819W), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Om Prakash (JC-242149M), 16 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Pradeep Kumar (JC-243585W), 16 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dharam Bir (JC-242780F), 01 Jun 2010

Nb Ris Shivdan Singh Hada (JC-243029A), 01 Jul 2010*

Nb Ris Krishnan K (JC-242970N), 31 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sajjan Singh (JC-242799A), 23 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sawai Singh (JC-242800K), 18 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Baljit Singh (JC-242948H), 17 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 28 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Shiv Charan Singh (JC-242648F), 29 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Satbir Singh Beniwal (JC-242018F), 01 Jul 2010

Nb Ris Rajive KP (JC-242622M), 15 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Gulwant Singh (JC-242169A), 28 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sulinder Singh (JC-242170P), 28 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Hari Singh (JC-242278M), 03 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 04 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ashok Kumar (JC-242381X), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rakesh Kumar (JC-242952L), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Udam Singh Chahar (JC-243583L), 20 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ajay Kumar A (JC-242752P), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dalbir Singh (JC-243584N), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rajinder Singh (JC-243530M), 04 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Prem Chand (JC-243531P), 31 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Sarwan Kumar (JC-243586Y), 31 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Dev Ram Choudhary (JC-243103W), 26 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 11 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Hawa Singh (JC-242891Y), 01 Aug 2010

Nb Ris Netrapal (JC-242468Y), 03 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kuljinder Singh (JC-242136P), 24 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Jang Bahadur Singh (JC-242573P), 28 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Suresh Kumar (JC-243150N), 26 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Karambir Singh (JC-242801M), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ram Niwas (JC-243104Y), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Mohinder Singh (JC-243456W), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Parbhat Singh (JC-241988X), 01 Aug 2010

Nb Ris Babu Lal (JC-243404A), 07 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Balwan Singh (JC-243078H), 12 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Rama Chandran Nair S (JC-242670M), 31 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Deenu Khan (JC-242949L), 31 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Kesho Dass (JC-242950A), 31 Jul 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Ghanshyam Singh Bhagod (JC-242745Y), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Raghbir Singh (JC-242449N), 02 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Ris Manjit Singh (JC-243093X), 01 Aug 2010

Nb Ris Narendra Kumar Yadav (JC-243124M), 01 Aug 2010

Nb Ris Ramesh Chander (JC-242594L), 01 Aug 2010

Nb Ris Sahib Singh (JC-242844F), 01 Sep 2010

To be Nb Ris

Dfr (Dvr/Opr) Sajay Kumar (No. 15462572K now JC-244694P), 20 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Md Nekbat Ali (No. 15463522L now JC-244695X), 02 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Dharma Singh (No. 15462743L now JC-244714X), 08 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Roop Singh Yadav (No. 15462754X now JC-244715A), 08 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Salokhe Sudhir Bhikaji (No. 15462756H now JC-244716H), 16 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Nimbalkar Anandarao Balasaheb (No. 15462758N now JC-244717L), 08 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Arbind Singh (No. 15462780Y now JC-244720L), 16 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Baljinder Singh (No. 15464611W now JC-244732A), 23 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 20 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Karnail Singh (No. 15465284H now JC-244733H), 23 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 20 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Kuldeep Singh (No. 15461856F now JC-244764H), 25 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Jugraj Singh (No. 15461264X now JC-244766N), 25 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 26 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Guddu Lal (No. 15463238P now JC-244773K), 24 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Kamal Deo Kumar Singh (No. 15463611K now JC-244774M), 26 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Shivappa Ghoda Geri (No. 1089719P now JC-244779L), 23 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 03 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Balwan Singh (No. 1089901P now JC-244780A), 23 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Shaik Moulali (No. 1089734K now JC-244782L), 23 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Rajendra Singh Tomar (No. 15463550X now JC-244696A), 01 Dec 2010

Dfr (Dvr/Gnr) E Siva Kumar (No. 1089722P now JC-244708K), 01 Dec 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Ram Bihari Mishra (No. 1089775N now JC-244709M), 01 Dec 2010

Dfr (Gnr/Dvr) Hanuman Singh (No. 1089679Y now JC-244724F), 22 Nov 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Veerbhadra Singh (No. 1099301A now JC-244741F), 01 Dec 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Umardeen (No. 1099735A now JC-244742K), 01 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Luthfur Rahman Laskar (No. 1099704A now JC-244745X), 01 Dec 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Jaipal Singh Shekhawat (No. 1099675W now JC-244744P), 07 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Surender Singh (No. 15464105L now JC-244751L), 01 Dec 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Mukesh Kumar (No. 15463583H now JC-244757M), 03 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Gopal Singh (No. 15462613H now JC-244765L), 02 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Bhatt Kaushik Kumar Kanu Bhai (No. 15462176N now JC-244771Y), 02 Dec 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Ravinder Singh (No. 15464100M now JC-244775P), 22 Nov 2010

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Narendra Swargiary (No. 15464585A now JC-244777A), 22 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Brij Bhooshan (No. 15462655P now JC-244783N), 01 Dec 2010

Dfr (Dvr/Opr) Satbir Singh (No. 15466127H now JC-244784W), 01 Dec 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Durga Ram (No. 15464880H now JC-244788M), 01 Dec 2010

Dfr (Opr/Gnr) Bhupender Singh (No. 15465032W now JC-244789P), 07 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Chabolu Kasanna (No. 15467553H now JC-244790K), 03 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Kamaljit Singh (No. 1089826W now JC-244794A), 04 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Paidi Gunasekhara Rao (No. 15461338F now JC-244801L), 04 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Kuldeep (No. 15464360X now JC-244814H), 07 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Kumar Hanamanta Gouda Patil (No. 15467671W now JC-244815L), 10 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Sudarshan Kumar (No. 15465072X now JC-244816N), 07 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Hanuman Ram Chowdhary (No. 1089369N now JC-244818Y), 07 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Sanjiv Kumar Dardi (No. 1088445H now JC-244834W), 07 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Rajesh Kumar (No. 1089388Y now JC-244835Y), 07 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Devi Singh Chouhan (No. 1088127Y now JC-244836F), 07 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Jalaluddin Ammanagi (No. 15462027A now JC-244710F), 10 Nov 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Kuldeep Raj (No. 15464035X now JC-244739K), 01 Dec 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Roshan Singh (No. 1099036P now JC-244743M), 01 Dec 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Prabhjot Singh (No. 15462530X now JC-244746A), 04 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Mukesh (No. 1089433A now JC-244760M), 01 Dec 2010

Dfr (Opr/Dvr) Sant Lal Sharma (No. 1099376X now JC-244767W), 01 Dec 2010

Dfr (Gnr/Opr) Ali Asgar Khan (No. 15464854F now JC-244778H), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Sanjiv Kumar (No. 15461099X now JC-244791M), 03 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Virpal Singh (No. 15461220A now JC-244792P), 03 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Bhupinder Singh (No. 15461622X now JC-244793X), 03 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Kans Raj (No. 1087254F now JC-244803W), 18 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Kulwinder Singh (No. 15465063W now JC-244804Y), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Shiv Ram Saini (No. 1098843X now JC-244805F), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Kulvinder Singh (No. 1099053P now JC-244806K), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) M Chandrasaha Raj (No. 1098787K now JC-244807M), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Rajan Singh (No. 1098629P now JC-244811P), 07 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Chander Bosh (No. 1089529H now JC-244819F), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Dharambir (No. 1089635F now JC-244820W), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Parkash (No. 1089884A now JC-244821Y), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Manoj Kumar (No. 15461014W now JC-244822F), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Khedakar Keshav Nivrutti (No. 15462351X now JC-244824M), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Rajender Singh (No. 15462418L now JC-244826X), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Jayapalan S (No. 15462318A now JC-244827A), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Sharwan Kumar (No. 15462867A now JC-244829L), 06 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Narendra Singh (No. 15462355N now JC-244825P), 08 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Laiju G (No. 15462448H now JC-244828H), 14 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Kamta Prasad (No. 1089417H now JC-244781H), 03 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Satpal Singh (No. 1089048W now JC-244853F), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Mar 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Jagdish Ram (No. 1089050N now JC-244850N), 14 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Kulwinder Singh (No. 1098655W now JC-244855M), 14 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Rajesh Kumar (No. 1099448W now JC-244860X), 14 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) G Venkata Konda Reddy (No. 15462446X now JC-244858A), 18 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Birender Singh (No. 1088378H now JC-244799Y), 04 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Kamlesh Bankhede (No. 15461408P now JC-244867F), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Kondamudi Srinivasa Rao (No. 15461434W now JC-244868K), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) C Singaram (No. 15462319H now JC-244869M), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Dhanbir Yadav (No. 1089807L now JC-244859H), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Jeetendra Nath Rai (No. 15464276X now JC-244870F), 16 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Shambhu Nath Sing (No. 15463393W now JC-244871K), 13 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Sanjay Kumar Dham (No. 15463747N now JC-244873P), 13 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Prabhu Ram Jat (No. 15463926N now JC-244874X), 13 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Rakha Hari Pandit (No. 15461008H now JC-244878N), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Inderjit Singh (No. 15461114F now JC-244879W), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Indra Jeet Singh (No. 15461482W now JC-244880L), 13 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) R Muruganandam (No. 15461823W now JC-244881N), 11 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Vijay Kumar (No. 15463284K now JC-244892A), 16 Dec 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 08 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Derangula Pullaiah (No. 15461061N now JC-244504X), 12 Jul 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Khose Shankar Vijay (No. 15462556M now JC-244585H), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Sanjeev Kumar (No. 15461327P now JC-244391A), 21 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Siva Kumar K (No. 15461629F now JC-244591W), 21 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Charanjit Singh (No. 15464184L now JC-244636L), 13 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Ravindra Kumar (No. 1089184M now JC-244645M), 20 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Davinder Singh (No. 15461627W now JC-244648A), 06 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Rajendra Singh (No. 15462089A now JC-244652H), 10 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Shivaji Patil (No. 15462026X now JC-244653L), 10 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Mohinder Singh (No. 15464876A now JC-244654N), 11 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Anil Kumar Sharma (No. 1089060X now JC-244655W), 13 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Dileep Kumar (No. 1099621P now JC-244659M), 10 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Aklesh Kumar (No. 1088177K now JC-244660F), 10 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) V Srinivasan (No. 1099354Y now JC-244662M), 14 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Ajit Singh (No. 1099455M now JC-244663P), 15 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) S Sush Kumar (No. 1099381H now JC-244664X), 16 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Dinesh Chandra Singh Chilwal (No. 1099508A now JC-244667L), 17 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 11 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Rajendra Prasad (No. 15462302P now JC-244668N), 21 Sep 2010*

*(Granted Seniority in Rank of Nb Ris wef 14 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Mukesh Kumar (No. 1099024A now JC-244661K), 18 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Banbari Lal (No. 1089220M now JC-244665A), 21 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Bijai Bahadur Singh (No. 1099171H now JC-244666H), 11 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Jai Prakash (No. 1089597W now JC-244671N), 24 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 14 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Ravendra Singh (No. 1089593F now JC-244672W), 24 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 14 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Sakti Pada Pandit (No. 1099775F now JC-244673F), 27 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Aji Kumar K (No. 15461046Y now JC-244674F), 27 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Swapan Paul (No. 1099669H now JC-244675K), 29 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Shidappa Siraganvi (No. 1099654A now JC-244578X), 30 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Ram Ayodhya Kumar (No. 1099762K now JC-244679A), 27 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Girand Singh Baghel (No. 15461913X now JC-244528F), 04 Oct 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 04 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Bhupender Singh (No. 15461096K now JC-244649H), 03 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Dev Raj (No. 15461340Y now JC-244367K), 08 Oct 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 13 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Pramod Kumar (No. 1088403W now JC-244509W), 07 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Narender Singh (No. 15463658P now JC-244595M), 07 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Madan Pal (No. 15464319F now JC-244596P), 07 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Sukhdev Singh (No. 15462328K now JC-244610W), 18 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Rakesh Kumar (No. 1099552K now JC-244627K), 01 Sep 2010

Dfr (Gnr/Dvr) Malyada Suryanarayan (No. 1099729M now JC-244631M), 01 Sep 2010

Dfr (Dvr/Gnr) Jasbir Singh (No. 15462362K now JC-244669W), 22 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 17 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Pushpender Singh (No. 15466718K now JC-244676M), 27 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Vipin Singh (No. 15467831L now JC-244677P), 27 Sep 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Mahendra Singh (No. 15461396L now JC-244680P), 01 Oct 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 19 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Kanhiya Lal (No. 15463536L now JC-244681X), 06 Oct 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 28 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) G Narayana Moorthy No. 1099471K now JC-244682A), 11 Oct 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Mahendra Prasad Singh (No. 1099635P now JC-244683H), 11 Oct 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Darshan Singh (No. 15461642L now JC-244685N), 11 Oct 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Opr) Ranjit Singh (No. 1089716F now JC-244687Y), 08 Oct 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 15 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) A Anbazhagan (No. 1099495N now JC-244688F), 14 Oct 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 05 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Patil Narayan Mukunda (No. 1099537P now JC-244689K), 15 Oct 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 19 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

J Roy Choudhary
Under Secy

AIR BRANCH

No. 184, dated 17th March 2011—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be Subs Gp Capt

Rank & Name (Number), Branch & Date

Gp Capt (Actg) A Sharma (17656), AE(M), 03 Nov 2008

His name will appear below Gp Capt MA Khan (17634) AE(L) and above Gp Capt S Sinha (17626) AE (M) in the Combined Gradation List

Gp Capt (Actg) AK Swarnkar (17629), AE(L), 03 Nov 2008

His name will appear below Gp Capt S Tiwari (17639) AE(L) and above Gp Capt A Tyagi (17654) AE(M) in the Combined Gradation List

Gp Capt (Actg) S Nathak (18486), AE(L), 01 Oct 2009

His name will appear below Gp Capt CVRR Sudhir (18531) AE(L) and above Gp Capt S Ramakrishnan (18466) AE(L) in the Combined Gradation List

Gp Capt (Actg) D Shrivastava (19042), AE(L), 01 May 2010

Gp Capt (Actg) V Rajasekhar (19052), AE(L), 01 May 2010

Gp Capt (Actg) U Chawla (19023), AE(L), 01 May 2010

Gp Capt (Actg) RS Kumar (19037), AE(L), 01 May 2010

Gp Capt (Actg) RL Narayanan (19038), AE(L), 01 May 2010

Gp Capt (Actg) S Sarkar (19054), AE(L), 01 May 2010

Gp Capt (Actg) B Philip (19029), AE(L), 01 May 2010

Gp Capt (Actg) GR Awasthi (19125), AE(L), 01 May 2010

Gp Capt (Actg) C Andrews (19413), AE(M), 02 May 2010

Gp Capt (Actg) NBR Rayudu (19429), AE(L), 01 Aug 2010

To be Subs GP Capt (Adm Branch)

GP Capt (Actg) S Jacob (No. 16652), ADM, 03 Nov 2008

His name will appear below GP Capt M Mohanta (No. 17390) ADM and above GP Capt M A Sridhar (No. 17027) ADM in the combined gradation list

GP Capt (Actg) C P Nigam (No. 17054), ADM, 01 Jul 2009

His name will appear below GP Capt R S Mehndiratta (No. 17394) ADM and above GP Capt M K Chitgupi (No. 17195) ADM retd in the combined gradation list

GP Capt (Actg) A P Selvan (No. 17885), ADM, 01 Apr 2010

His name will appear below GP Capt K Anantharaman (No. 17882) ADM and above GP Capt A Sahi (No. 17887) ADM in the combined gradation list

A K SINGH

Dy Dir Personnel (Officer)-2B

No. 185, dated 17th March 2011—The President is pleased to retire Shri G C Sharma, Section Officer (DoB : 10.01.1951)

Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.1.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri B K Gupta, Section Officer (DoB : 27.01.1951) Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.1.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri Mohinder Partap, Section Officer (DoB : 15.01.1951) Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.1.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

The President is pleased to retire Shri Jagdish Prasad, Section Officer (DoB : 05.01.1951) Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.1.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

S K RASTOGI
Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 186, dated 18th March 2011—Consequent upon attaining the age of superannuation on 04 Feb 2007 and on expiry of the four years extension of service granted to him vide Government of India, Ministry of Defence letter No. DOP/05/50207M/01/132/D (R&D) dated 24 Jan 2007 and DOP/05/50207M/01/181/D (R&D) dated 31 Jan 2009, Dr Prahlada, DS & CD R&D (Ae & SI), DRDO HQ has been retired from service with effect from 28 Feb 2011 (A/N) and transferred to pension establishment with effect from 01 Mar 2011 (F/N).

T ABDURRASSAK
Jt Dir (Pers)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 187, dated 18th March 2011—The President is pleased to make the following amendment in the Ministry of Defence Gazette Notification published in Part I, Section-4 of the Gazette of India on 15 Aug 2009 under the heading Regular Army/Permanent Commission & Sub Heading Lt Col to be Col (& equivalent) :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS

Lt Col to be Col (& equivalent)

FOR

K Srikar (MR-05400W), 12 Mar 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Feb 2009

S Kaushal (MR-05395W), 03 Feb 2009

R K Gupta (MR-05398K), 03 Feb 2009

R C Sahni (MR-06204H), 03 Feb 2009

READ

K Srikar (MR-05400W), 12 Mar 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Jan 2009

S Kaushal (MR-05395W), 03 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Jan 2009

R K Gupta (MR-05398K), 03 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Jan 2009

R C Sahni (MR-06204H), 03 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Jan 2009

The President is pleased to make the following amendment in the Ministry of Defence Gazette Notification published in Part I, Section-4 of the Gazette of India on 26 Sep 2009 under the heading Regular Army/Permanent Commission & Sub Heading Lt Col to be Col (& equivalent) :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS

Lt Col to be Col (& equivalent)

FOR

H S Bindra (MR-06472M), 02 Feb 2009

READ

H S Bindra (MR-06472M), 02 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 14 Jan 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 188, dated 18th March 2011—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 611/96 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to be Major" the following amendment is made :—

FOR

IC-44887 R Garwal, Engrs, 13 Jun 1996

READ

IC-44887 Rajeev Agarwal, Engrs, 13 Jun 1996

P K SHASTRI

Maj

AMS 8B

No. 189, dated 21st March 2011—Shri Ravi Shanker Bissa, Section Officer (DoB: 28.03.1956), Ministry of Defence expired on 02 Feb 2011.

K MURALI

Under Secy